



jkT; LokLF; l fefr] fcgkj i fjokj dY; k k Hou] 'k[k i gk] i Vuk&14



fufonk l puk

fofHku izlkj ds ekM; y] vkbZbZl h l kafxz kabR; kfn ds emzk , oavki frZgrq

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार की सामग्रियों/प्रशिक्षण सामग्री/मार्गदर्शिका अथवा मॉड्यूल/सूचनापट्ट इत्यादि का विभिन्न प्रकार के सामग्रियों यथा कागज, टिन प्लेट, फ्लेक्स/क्लॉथ बैनर, सनबोर्ड/एक्रीलिक बोर्ड, विनाईल इत्यादि पर मुद्रण एवं मुद्रणोपरांत बिहार राज्य के जिला मुख्यालयों यथा सिविल सर्जन कार्यालय/जिला स्वास्थ्य समिति अथवा अन्य कार्यालय तथा आवश्यकतानुसार राज्य मुख्यालय स्तर पर आपूर्ति हेतु विभिन्न प्रसिद्ध एवं पंजीकृत मुद्रण एजेंसियों/फर्मों से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा मुहरबंद लिफाफे में द्वि-लिफाफा प्रणाली अंतर्गत निविदा आमंत्रित करती है।

उक्त निविदा में उल्लेखित सामग्रियों की आवश्यकतानुसार निविदा को चार वर्गों यथा 'कोटि ए', 'कोटि बी', 'कोटि सी' एवं 'कोटि डी' में विभक्त कर भिन्न-भिन्न शर्तों के तहत निविदा आमंत्रित की जा रही है। इन वर्गों में उल्लेखित सामग्री की विशिष्टता एवं अन्य विवरणी तथा इस निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी यथा पात्रता, मापदण्ड, नियम एवं शर्तें इत्यादि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर उपलब्ध है।

द्वि-लिफाफा प्रणाली अंतर्गत एक बड़े लिफाफे के अंदर दो अलग-अलग लिफाफे डालकर बड़े लिफाफे के उपर fofHku izlkj ds ekM; y] vkbZbZl h l kafxz kabR; kfn ds emzk , oavki frZgrq अवश्य अंकित होनी चाहिए।

1) तकनीकी निविदा हेतु ^doj , & fofHku izlkj ds ekM; y] vkbZbZl h l kafxz kabR; kfn ds emzk , oavki frZgrq अवश्य अंकित होनी चाहिए।

एवं

2) वित्तीय निविदा हेतु – ^doj ch & fofHku izlkj ds ekM; y] vkbZbZl h l kafxz kabR; kfn ds emzk , oavki frZgrq अवश्य अंकित होना चाहिए।

निविदा के विभिन्न कोटि/वर्गों हेतु निर्धारित अग्रधन राशि (EMD) जो jkT; LokLF; l fefr] fcgkj] i Vuk ds uke l s ns] i Vuk ea Hxrs (in favour of State Health Society, Bihar and payable at Patna) एवं किसी मान्यता प्राप्त बैंक से निर्गत, इस निविदा के तकनीकी बिड के साथ अवश्य संलग्न किया जाना है जिसकी विवरणी निविदा में उल्लेखित है। जिस निविदा के साथ अग्रधन राशि संलग्न नहीं होगी उस पर विचार नहीं किया जाएगा अर्थात् उसे स्वतः रद्द समझा जायेगा।

इस निविदा के संदर्भ में निविदा जमा करने के पश्चात् किसी भी एजेन्सी द्वारा किए गए किसी प्रकार के पत्राचार पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

i hfcM cSd dh frffk %दिनांक 10 जुलाई, 2015 पूर्वाह्न 11 बजे (राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सभागार कक्ष में)।

fufonk i Hr djus dh vare frffk %निविदा मात्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 23 जुलाई, 2015 अपराह्न 3 बजे तक या इससे पूर्व राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-14 को प्राप्त हो जानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से एवं अन्य माध्यम से जमा किये गये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

rduhdh fcM [kysus dh frffk , oal e; %दिनांक 23 जुलाई, 2015 अपराह्न 4 बजे।

Wij dk Zkyd funskd

fufonk l puk

fufonk i zlkj dsekM; y] vkbZl h l lefxz kabR; kn ds emzk , oavki frZgrqfufonk

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु प्रचार-प्रसार सामग्रियों/प्रशिक्षण सामग्री/मार्गदर्शिका अथवा मॉड्यूल/सूचनापट्ट इत्यादि का विभिन्न प्रकार के सामग्रियों यथा कागज, टिन प्लेट, पलेक्स/क्लॉथ बैनर, सनबोर्ड/एक्रीलिक बोर्ड, विनाईल इत्यादि पर मुद्रण एवं मुद्रणोपरान्त बिहार राज्य के जिला मुख्यालयों यथा सिविल सर्जन कार्यालय/जिला स्वास्थ्य समिति अथवा अन्य कार्यालय तथा आवश्यकतानुसार राज्य मुख्यालय स्तर पर आपूर्ति हेतु विभिन्न प्रसिद्ध एवं पंजीकृत मुद्रण एजेंसियों/फर्मों से मुहरबंद लिफाफे में द्वि-लिफाफा प्रणाली अंतर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त निविदा में उल्लेखित सामग्रियों की आवश्यकतानुसार निविदा को चार वर्गों यथा 'कोटि ए', 'कोटि बी', 'कोटि सी' एवं 'कोटि डी' में विभक्त कर भिन्न-भिन्न शर्तों के तहत निविदा आमंत्रित की जा रही है। इन वर्गों में उल्लेखित कोटिवार सामग्री की विशिष्टता एवं अन्य विवरणी तथा इस निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी यथा पात्रता, मापदण्ड, नियम एवं शर्तें इत्यादि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर उपलब्ध है।

द्वि-लिफाफा प्रणाली अंतर्गत एक बड़े लिफाफे के अंदर दो अलग-अलग लिफाफे डालकर बड़े लिफाफे के उपर fufonk i zlkj ds l lefxz kabR; kn ds emzk , oavki frZgrqfufonk अवश्य अंकित होनी चाहिए।

- 1) तकनीकी निविदा हेतु ^doj , & fufonk i zlkj dsekM; y] vkbZl h l lefxz kabR; kn ds emzk , oavki frZgrqfufonk dk rdudh fcM& dkV , @ch@l h@Mh (जैसा उपयुक्त हो)
एवं
- 2) वित्तीय निविदा हेतु – ^doj ch & fufonk i zlkj dsekM; y] vkbZl h l lefxz kabR; kn ds emzk , oavki frZgrqfufonk dk foUkr; fcM& dkV , @ch@l h@Mh (जैसा उपयुक्त हो) लिफाफे के उपर अवश्य अंकित होना चाहिए। कवर 'बी' वाले लिफाफे में सामग्रीवार मात्र Annexure 3 में निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय निविदा अथवा दर उद्धृत कर मुहरबंद किया जाना है।

fof' kVrk foj. kh (Specifications) % Annexure 1 के रूप में संलग्न है जिसमें कोटिवार सभी सामग्रियों की पूर्ण विशिष्टता उल्लेखित है।

rdudh fufonk grqokN; dkxt k@' kUk (Documents/Conditions)% कोटि 'ए', 'बी', 'सी' एवं 'डी' में उल्लेखित सामग्रियों हेतु सम्मिलित रूप से तकनीकी निविदा हेतु निर्धारित योग्यता/मापदण्ड के अनुरूप निम्नांकित कागजात/दस्तावेज अवश्य समर्पित किए जाने हैं :-

1. निविदा के आलोक में तकनीकी बिड हेतु कोटिवार पात्रता मापदण्ड : कोटि 'ए', 'बी', 'सी' एवं 'डी' हेतु जमा किए जाने वाले सभी दस्तावेजों को मुद्रण एजेन्सी के किसी प्राधिकृत व्यक्ति/एजेन्सी के सभी साझेदारों (जहाँ उपयुक्त हो) द्वारा अभिप्रमाणित (एजेन्सी की मुहर के साथ) किया जाना है। निविदा में अनुक्रमणिका के साथ सभी दस्तावेजों पर क्रमवार पृष्ठ संख्या एवं मुहर अंकित की जानी है तथा सभी कागजात मुद्रण एजेंसी के प्राधिकृत व्यक्ति/साझेदारों द्वारा स्व-हस्ताक्षरित होना चाहिए। इन्हीं नामित व्यक्तियों द्वारा निविदा में सभी निम्नांकित महत्वपूर्ण वांछित दस्तावेजों को हस्ताक्षरित किया जायेगा एवं निविदा खोलते समय उपस्थित रह पायेंगे।
2. इच्छुक एजेन्सी अपनी योग्यता के अनुसार एक से अधिक कोटि हेतु निविदा डाल सकती है।
3. तकनीकी निविदा के साथ Annexure – 2 के रूप में संलग्न प्रपत्र में सामग्रीवार अपने यूनिट की उत्पादन क्षमता उल्लेखित की जानी अनिवार्य है।
4. निर्धारित प्रपत्र Annexure - 3 में वित्तीय निविदा अर्थात् सामग्रीवार मुद्रण एवं जिलावार आपूर्ति का एकमुश्त दर उद्धृत किया जाना है।
5. इच्छुक निविदादाताओं का मुद्रण कार्य में विगत तीन वित्तीय वर्षों यथा 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में कुल न्यूनतम औसत टर्नओवर (तीनों वर्ष मिलाकर) निम्नांकित होना चाहिए:

dkV ^, ^ esufonk Mkyus grq विगत तीन वर्षों में औसतन टर्नओवर ₹ 15 (पन्द्रह) करोड़ रुपये।

द्वितीय वर्ष विगत तीन वर्षों में औसतन टर्नओवर ₹ 5 (पाँच) करोड़ रुपये।

तृतीय वर्ष विगत तीन वर्षों में औसतन टर्नओवर ₹ 03 (तीन) करोड़ रुपये।

चतुर्थ वर्ष विगत तीन वर्षों में औसतन टर्नओवर ₹ 75 (पचहत्तर) लाख रुपये।

6. इच्छुक एजेन्सी द्वारा कर निर्धारण वर्षों यथा 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में एजेंसी/प्रोपराईटर/पार्टनर के नाम से दाखिल आयकर रिटर्न समर्पित किया जाना है।
7. गत तीन वित्तीय वर्षों यथा 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 का पूर्ण अंकक्षित प्रतिवेदन एजेंसी/प्रोपराईटर के द्वारा समर्पित किया जाना है, जो कि Chartered Accountant के द्वारा सत्यापित किया गया हो। सिर्फ Chartered Accountant का प्रमाण-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
8. एजेंसी के नाम से निर्गत पैन कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति भी निविदा के साथ समर्पित किया जाना है। परंतु प्रतिष्ठान, Proprietorship / Partnership के अंतर्गत होने की स्थिति में स्वामी/Partnership Firm के नाम से निर्गत PAN CARD मान्य होगा (जैसा उपयुक्त हो)।
9. एजेन्सी को किसी सरकारी/अर्द्ध-सरकारी विभाग अथवा लोक उपक्रम/निकाय/समिति के साथ मुद्रण (जिस प्रकार की सामग्री का मुद्रण राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा इस निविदा में प्रस्तावित है) एवं जिलावार आपूर्ति का संबंधित क्षेत्र में विगत लगातार तीन वित्तीय वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए जिसके समर्थन में कार्यादेश की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ एवं मुद्रित सामग्रियों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ भी निविदा के साथ संलग्न कर समर्पित की जानी है।
10. निविदादाता द्वारा विगत तीन वित्तीय वर्षों में सफलतापूर्वक निष्पादित किये गये कार्य अर्थात् ससमय एवं गुणवत्तायुक्त संपादित मुद्रित व आपूर्ति कार्य के आशय के संदर्भ में संबंधित विभाग/कार्यालय के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
11. मुद्रण प्रेस को बिहार राज्य के वाणिज्य कर विभाग (Commercial Tax Dept.) से वैट/सी.एस.टी में पंजीकृत होने संबंधी निबंधन प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा जो कि वित्तीय वर्ष 2011-12 अथवा इसके पूर्व का होना चाहिए।
यदि किसी कारणवश निविदादाता बिहार राज्य के वाणिज्य कर विभाग से पंजीकृत नहीं है एवं निविदा में सफल घोषित होती है तो ऐसी अवस्था में निविदा में सफल घोषित होने के 15 दिनों के अंदर बिहार प्रांत के वाणिज्य-कर विभाग से विहित प्रपत्र में निबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त कर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में समर्पित करना अनिवार्य होगा।
12. निविदा डालने वाली मुद्रण एजेन्सी को किसी भी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी विभाग अथवा लोक उपक्रम द्वारा काली सूचीबद्ध नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में नन् जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का निर्गत शपथ पत्र की मूल प्रति इस निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है।
13. निविदा डालने को इच्छुक एजेन्सी के प्रिंटिंग प्रेस में प्री-प्रेस, प्रेस एवं पोस्ट प्रेस की अन्य आधुनिक मुद्रण की सुविधाओं के साथ निम्नांकित न्यूनतम आवश्यकताएँ होनी चाहियें:

(i) प्री-प्रेस:

- i. कम्प्यूटर सेट एवं ग्राफिक डिजाईनर (कोटि ए, बी, सी एवं डी हेतु)
- ii. सी.टी.पी. मशीन/इमेज सेटर (कोटि 'ए' एवं 'सी' हेतु)
- iii. डिजिटल कलर प्रूफिंग एवं Professional प्रूफ रीडर (कोटि ए, बी, सी एवं डी हेतु)
- iv. Plate Making Machine (कोटि बी हेतु)

(ii) पोस्ट प्रेस:

- i Automatic Folding Machine and Perfect Binding Machine (कोटि ए एवं सी हेतु)

- ii Computerized कटिंग मशीन (कोटि 'ए' एवं 'सी' हेतु)
 - iii कार्टून/पैकेट हेतु पैकेजिंग, लेबेलिंग तथा स्ट्रैपिंग सुविधायें (कोटि ए, बी, सी एवं डी हेतु)
 - iv Coating machine, Drying Oven & Metal sheet slitting machine (कोटि बी हेतु)
 - v परिसर में 1000 वर्ग फीट बाईन्डिंग एरिया (कोटि ए, बी, सी एवं डी हेतु)
14. विभिन्न प्रकार के सामग्रियों (जिनके मुद्रण हेतु निविदा आमंत्रित है) के मुद्रण हेतु वांछित मशीन बिहार राज्य में संस्थापित होने का प्रमाण-पत्र की छायाप्रति मुद्रण एजेंसी को निविदा के साथ समर्पित करना अनिवार्य है, जिस हेतु निविदा डाली जा रही हो। एजेंसी के नाम से संबंधित मशीन (मुद्रित की जाने वाली सामग्री के आवश्यकतानुसार) के क्रय के विपत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति भी एजेंसी को समर्पित करना होगा जिसका आवश्यकतानुसार मूल विपत्र से मिलान भी किया जा सकता है। साथ ही प्रिंटिंग प्रेस में उल्लेखित सामग्रियों के मुद्रण हेतु संस्थापित मशीनों के विपत्र एवं मशीनों की स्व-अभिप्रमाणित सूची भी संलग्न करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा शॉर्टलिस्टेड एजेंसियों के मुद्रण प्रेस का भौतिक सत्यापन भी किया जा सकता है।
- dkV ^,* grqfiVx id ea okNr vfuok Ze'kua** %Sheetfed Offset machine/Web Offset Machine for four colour/multi colour sheedfed printing एवं उपरोक्त क्र सं 13 में वर्णित सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए।
- dkV ^cl* grqfiVx id ea okNr vfuok Ze'kua** %Metal Printing machine suitable to print metal sheets as required एवं उपरोक्त क्र सं 13 में वर्णित सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए।
- dkV ^1k* grqfiVx id ea okNr vfuok Ze'kua** %Sheetfed Offset machine/Web Offset Machine for printing of four colour/multi colour Sheedfed एवं उपरोक्त क्र सं 13 में वर्णित सुविधाएँ उपलब्ध होनी चाहिए।
- dkV ^M* grq fiVx id ea okNr vfuok Z e'kua** % (i) Machine-ColorZet/ Gonzeng/Polaris/Infinity/NOVA, (ii) Four feet plotter machine and (iii) Screen Printing Facilities.
15. निविदा में मुद्रण हेतु उल्लेखित सभी सामग्रियों यथा कागज व टिन प्लेट पर मुद्रित सामग्रियों, पलेक्स बैनर, क्लॉथ बैनर, पलेक्स कैलेण्डर इत्यादि अथवा जिस सामग्री हेतु एजेंसी द्वारा निविदा डाली जा रही हो, का नमूना (बिना मुद्रित) तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है जिस पर उसकी विशिष्टता (एजेंसी के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित) Permanent Marker Pen से उल्लेखित होना चाहिए।
16. एजेंसी वैध आई.एस.ओ. प्रमाणीकृत होना चाहिये। आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छाया-प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। तकनीकी बिड खोलने के समय मूल प्रमाण-पत्र लाना अनिवार्य होगा। निविदा खोलने के दिन, आवश्यकता पड़ने पर इसकी जाँच भी की जा सकती है।
17. श्रम विभाग, बिहार सरकार द्वारा संबंधित मुद्रण एजेंसी को निर्गत फ़ैक्ट्री लाईसेंस की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति भी संलग्न करनी होगी।
18. साथ ही संबंधित मुद्रण एजेंसी को Employees Provident Fund (EPF) एवं Employees State Insurance Corporation (ESIC) से पंजीकृत होने संबंधी प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, तथा वर्तमान में (EPF) एवं (ESIC) में किये गये अद्यतन भुगतान का प्रमाण-पत्र/रसीद की छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा।
19. निविदा डालने वाली एजेंसी के नाम से तीन फेज बिजली आपूर्ति का कनेक्शन होना चाहिए। इस हेतु वर्तमान में बिजली विपत्र तथा भुगतान रसीद का सत्यापित छायाप्रति तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
20. अग्रधन राशि: विभिन्न कोटियों हेतु निविदा डालने हेतु निम्नांकित राशि का डिमांड ड्राफ्ट अग्रधन राशि स्वरूप संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

कोटि 'ए' - ₹ 1000000/- (दस लाख रुपए) का डिमाण्ड ड्राफ्ट

कोटि 'बी' - ₹ 300000/- (तीन लाख रुपए) का डिमाण्ड ड्राफ्ट

कोटि 'सी' - ₹ 200000/- (दो लाख रुपए) का डिमाण्ड ड्राफ्ट

कोटि 'डी' - ₹ 40000/- (चालिस हजार रुपए) का डिमाण्ड ड्राफ्ट

जिस निविदा के साथ अग्रधन राशि संलग्न नहीं होगी उस पर विचार नहीं किया जाएगा अर्थात् उसे स्वतः रद्द समझा जायेगा। अग्रधन राशि, निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने पर संबंधित एजेन्सी को लौटा दिया जाएगा।

vU olNr fu; e , oa' kUl%&

- i. विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के महत्व एवं उपयोगिता को देखते हुए, एकरारनामा में उल्लेखित आपूर्ति तिथि से भी अल्प समय में अर्थात् कार्य की उपयोगिता के आधार पर मुद्रण कर राज्य/जिला स्तर पर मुद्रित सामग्री की आपूर्ति एजेन्सी को करनी पड़ सकती है। इस हेतु निविदा डालने हेतु इच्छुक मुद्रण एजेन्सी के प्रिन्टिंग प्रेस अथवा उसकी शाखा बिहार में अवश्य अवस्थित होनी चाहिये जिसमें राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा निविदा में निर्धारित विभिन्न 'कोटियों' (जिसके लिये निविदा डाली गई हो) में वर्णित सामग्रियों के मुद्रणयोग्य मशीन संस्थापित होने एवं क्रियाशील होनी चाहिये।
- ii. Joint Venture में डाली गई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iii. यह निविदा एक वर्ष तक के लिए वैध होगी। कार्य संतोषजनक होने पर निविदा एवं अनुबंध की अवधि एक वर्ष तक के लिए अथवा कार्य हित में कार्यपालक निदेशक/अपर कार्यपालक निदेशक को जो मान्य हो उस अवधि तक के लिये विस्तारित की जा सकती है।
- iv. तकनीकी निविदा खोलने के पश्चात् संगत निविदा-शर्तों के तहत जिनकी तकनीकी निविदा स्वीकार्य/अनुमान्य होगी, मात्र उन्हीं निविदादाताओं के वित्तीय निविदा को खोला जाएगा। वित्तीय निविदा निर्धारित प्रपत्र में ही समर्पित की जानी है। अन्य प्रपत्र में समर्पित वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- v. इस निविदा के आलोक में मुद्रित होने वाले सामग्रियों की आवश्यकता के अनुसार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के दिशा-निर्देशानुसार प्रकाश्य सामग्री का ले आउट डिजाईन, संकलन, संपादन, कलर प्रुफींग, प्रुफ शोधन, फोटोग्राफी संकलन, प्रकाशन, बाइंडिंग, पैकिंग, प्रयुक्त होने वाले कागज सहित मुद्रण स्वयं अपने व्यय पर करने की पूर्ण जवाबदेही आपूर्तिकर्ता की होगी जिसका कार्यालय के सक्षम/संबंधित प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मुद्रित होने वाले सामग्रियों के मुद्रण, सभी करों के अतिरिक्त पैकिंग शुल्क तथा जिलों तक सुरक्षित तौर पर आपूर्ति करने पर आने वाले परिवहन शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में एजेन्सी द्वारा दर उद्धृत किया जाना है।
- vi. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा में जिन एजेन्सियों का जिन सामग्रियों के मुद्रण हेतु दर न्यूनतम पाया जायेगा उन्हें उस सामग्री के मुद्रण एवं जिलावार आपूर्ति हेतु चयनित किया जायेगा।
- vii. यदि किसी सामग्री का उद्धरित दर दो या अधिक एजेन्सी का बराबर पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में न्यूनतम दर वाली एजेन्सियों के मध्य उस particular सामग्री का मुद्रण एवं आपूर्ति हेतु जिलों को बाँट दिया जायेगा अथवा जिस एजेन्सी का performance अच्छा होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी तथा उस particular सामग्री का मुद्रण कर आवंटित जिलों में आपूर्ति उस एजेन्सी के द्वारा की जानी होगी।
- viii. चयनित एजेन्सी को राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, पटना के साथ एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित करना होगा जिसमें दायित्वों के सफलतापूर्वक निर्वहन करने पर विफल होने अर्थात् आपूर्ति की गई मुद्रित सामग्री में किसी प्रकार की अशुद्धि/त्रुटि/अस्पष्टता/कमजोर बाइंडिंग/निर्धारित विशिष्टता के अनुसार गुणवत्ता में कमी एवं ससमय आपूर्ति में विफलता इत्यादि की स्थिति में भुगतये राशि निम्न गुणवत्ता शुल्क, विलंब शुल्क इत्यादि की कटौती करने, बैंक गारंटी को अधिग्रहित करने (forfeit), अनुबंध को रद्द करने, सामग्री का गुणवत्ता जाँच कराने हेतु संबंधित एजेन्सी द्वारा जाँच शुल्क का भुगतान करने जैसे तथा अन्य नियमसंगत शर्तों का उल्लेख रहेगा। वर्तमान में सूचीबद्ध एजेन्सियों के साथ हस्ताक्षरित एकरारनामों की प्रति निविदा के साथ संलग्न है जिसमें निविदा हस्ताक्षरित कराते वक्त वर्तमान निविदा के आलोक में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जाना है।
- ix. न्यूनतम उद्धृत दर के आधार पर चयनित एजेन्सी द्वारा performance guarantee स्वरूप एक वर्ष के लिए मुद्रित करायी जाने वाली सामग्री के सम्भावित मूल्य का 5 से 10 प्रतिशत अथवा कार्यपालक निदेशक/अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को जो मान्य हो, की राशि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पक्ष में बैंक गारंटी के रूप में एजेन्सी को जमा करना होगा।

- x. एकरारनामा में निहित शर्तोंनुसार आपूर्ति के उपरांत मुद्रण एजेंसी द्वारा कार्यालय में उचित ढंग से विपत्र समर्पित करने के पश्चात् सचिका उपलब्ध रहने पर एक माह के अंदर 80 प्रतिशत विपत्र राशि का नियमानुकूल भुगतान किया जा सकेगा तथा शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान मुद्रित सामग्री के गुणवत्ता के जाँचोपरांत किया जायेगा।
- xi. चारों कोटि में वर्णित किसी भी सामग्री के एक लाख रूपये तक के लिए निर्गत कार्यादेश के आलोक में मुद्रित सामग्री के गुणवत्ता की जाँच हेतु कार्यपालक निदेशक/अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा गठित समिति के सदस्यों के संयुक्त प्रतिवेदन मान्य होंगे तथा एक लाख से अधिक मूल्य के कार्यादेश के आलोक में मुद्रित सामग्री के गुणवत्ता की जाँच CPPRI/TUV-SUD South Asia अथवा अन्य गुणवत्ता जाँच एजेन्सी से कराया जायेगा।
- xii. सामग्री की गुणवत्ता जाँच शुल्क का भुगतान संबंधित मुद्रण एजेन्सी द्वारा गुणवत्ता जाँच एजेन्सी को किया जायेगा।
- xiii. जिला एवं राज्य स्तर पर सामग्री की प्राप्ति भंडारपाल अथवा भंडार के प्रभारी/नामित नोडल पदाधिकारी/किसी सक्षम पदाधिकारी अथवा कर्मी द्वारा की जानी है। (प्राप्ति रसीद का प्रारूप संलग्न है)।
- xiv. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता असंतोषप्रद होने या आपूर्ति में विलम्ब होने पर संलग्न एकरारनामा प्रारूप में उल्लेखित दर के अनुसार कटौती भी की जायेगी।
- xv. यदि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के संज्ञान में एजेन्सी द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा निर्गत कार्यादेश के कार्य संपादन में कोई संगीन चूक होने या एजेंसी द्वारा दायित्वों का निर्वहन नहीं करने पर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो ऐसी परिस्थिति में एजेन्सी का अनुबंध भी समाप्त कर जमानत स्वरूप जमा राशि नियमाकूल जब्त करने के साथ-साथ संबंधित एजेन्सी को काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही इस परिस्थिति में L1 दरों पर L2 अथवा L3 एजेंसी से कार्य कराने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्वतंत्र होगी।
- xvi. कार्यहित को ध्यान में रख कर मुद्रण कार्य की अधिकता, अल्प समय में कार्य सम्पादन कराने की परिस्थिति में L1 दर पर L2 अथवा L3 से कार्य कराने हेतु भी राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार स्वतंत्र होगी।
- xvii. कार्यपालक निदेशक/अपर कार्यपालक निदेशक को किसी भी समय उक्त निविदा को बिना कारण बताए स्थगित अथवा रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। इस संदर्भ में लिए गए निर्णय पर पुर्नविचार नहीं किया जाएगा।
- xviii. इस निविदा के संदर्भ में निविदा जमा करने के पश्चात् किसी भी एजेन्सी द्वारा किए गए किसी प्रकार के पत्राचार पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
- xix. निविदा एवं एकरारनामा के शर्तों के तहत दोनों पक्षों के बीच हुए किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा सर्वप्रथम आपसी सामंजस्य से किया जायेगा। अगर सहमति नहीं बनी तो इस मामले का arbitration proceeding के प्रावधानों के तहत निपटारा किया जायेगा।
- xx. विदित हो कि L1 एजेंसी घोषित किये जाने के पश्चात् एजेंसी द्वारा कार्य शुरू करने में असमर्थता व्यक्त करने या वांछित एकरारनामा हस्ताक्षरित नहीं करने की स्थिति में भी चयनित एजेंसी द्वारा जमा किये गये अग्रधन राशि को जब्त किया जाएगा और काली सूची में भी दर्ज किया जायेगा।

fufonk t ek djus dh vfire frffk % इच्छुक फर्म/मुद्रण एजेंसी द्वारा मुहरबंद लिफाफे में सिर्फ निबंधित पोस्ट/स्पीड पोस्ट के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना-14 के कार्यालय में निविदा में वर्णित वांछित दस्तावेजों/कागजातों इत्यादि सहित दिनांक 23 जुलाई, 2015 को अपराहन 3 बजे तक निविदा अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जमा किये गये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

rduhdh fufonk [klyus grqfu/kZjr frffk % दिनांक 23 जुलाई, 2015 को अपराहन 4 बजे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के सभागार कक्ष में गठित समिति के समक्ष तकनीकी निविदा खोली जाएगी। इच्छुक निविदादाता या उनके द्वारा विधिवत् एजेन्सी द्वारा पत्र के साथ प्राधिकृत प्रतिनिधि (मात्र एक व्यक्ति प्रति निविदादाता) तकनीकी निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।

ANNEXURE - 1 (Specification of Materials)

fufonk ea emzk grq fofHdu izlkj ds l lefxz l dh l lexbokj fof' k'Vrk foofj. 10% निविदा प्रारूप के विभिन्न कोटियों यथा कोटि 'ए', 'बी', 'सी' एवं 'डी' में वर्णित सामग्रियों के मुद्रण हेतु सामग्रीवार विशिष्टता एवं संख्या विवरणी निम्नवत् है जिसके अनुरूप मुद्रण करवाया जाना है।

CATEGORY- 'A' 1/2, *1/2

S.No.	Items	Specifications	Expected Quantity
1.	MCH Cards	Size-11.75"x4.2"x 7 Fold (11.75"x29.4" Finished Size) Colour – 4 colour both side printing. Paper-170 GSM Art paper C2S, Ballarpur Industries Ltd. (BILT), Fabrication – 7 Fold folding	Up to 80,000
			80,001-1,60,000
			1,60,001-2,40,000
			2,40,001 & more
2.	WIFS Card	Size-8.5"x11", Paper- Art Board 300 GSM, Printing- Single / Both side multi colour printing.	Up to 1,00,000
			1,00,001-10,00,000
			10,00,001-50,00,000
			50,00,001-100,00,000
3.	Folder/Card-1	Size-8.5"x11", Paper- Art Board (BILT) 300 GSM, Printing- Single side multi colour printing.	Up to 1,00,000
			1,00,001-10,00,000
			10,00,001-50,00,000
			50,00,001-100,00,000
4.	Folder/Card-2	Size-8.5"x11", Paper- Art Board (BILT) 300 GSM, Printing- Both side multi colour printing.	Up to 1,00,000
			1,00,001-10,00,000
			10,00,001-50,00,000
			50,00,001-100,00,000
5.	Folder/Card-3	Size-8.5"x11", Paper- Art Paper (BILT) 170 GSM, Printing- Single side multi colour printing.	Up to 1,00,000
			1,00,001-10,00,000
			10,00,001-50,00,000
			50,00,001-100,00,000
6.	Folder/Card-4	Size-8.5"x11", Paper- Art Paper (BILT) 170 GSM, Printing- Both side multi colour printing.	Up to 1,00,000
			1,00,001-10,00,000
			10,00,001-50,00,000
			50,00,001-100,00,000
7.	RBSK Card (0-6 yrs)	Size-8.5"x11", No. of Pages-4, Paper- Art Paper (BILT) 170 GSM, Printing- Both side multi colour printing, Fabrication - One fold folding	Up to 1,00,000
			1,00,001-10,00,000
			10,00,001-50,00,000
			50,00,001-100,00,000
8.	RBSK Card (6-18 yrs)	Size-8.5"x11", No. of Pages-2, Paper- Art Paper (BILT) 170 GSM, Printing- Both side multi colour printing.	Up to 1,00,000
			1,00,001-10,00,000
			10,00,001-50,00,000
			50,00,001-100,00,000
9.	Comics	Size- 8.5" X11" Text & Cover:- Colour- multi colour both side printing, Paper-130 GSM Mat art paper (BILT), Fabrication -Centre stitch binding. No. of pages – 16	< 1,00,000 book
			1,00,001- 2,00,000
			2,00,001- 4,00,000
			4,00,001 & above
10.	Pocket Book	Size-4.25" X 5.5" Cover & Text Paper- 130 GSM Mat art paper (BILT), Printing- four colour both side, Lamination- one side on cover mat finished, Fabrication- Section sewing with perfect glue paste binding/centre stitch.	Less than 3,000 books
			3001-10,000
			10,001-20,000
			20,001-50,000
			50,001-1,00,000 & above
			Less than 3,000 books
			3001-10000
			10,001-20000
20,001-50000			
50,001-1,00,000 & above			

11.	Booklet I	Size-8.5" X 5.5" Cover Paper- 300 GSM Mat art board, Cover Printing- four colour Text Paper- 170 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination- one side on cover mat finished, 100 Pages or more, Fabrication- section swing with perfect glue paste binding.	Less than 1,000	
			1,001-3,000	
			3,001 & above	
			10,001 to 50,000	
			More than 50,001	
12.	Booklet II	Size-8.5" X 5.5" Cover Paper- 300 GSM Art board, Cover Printing- four colour Text Paper- 130 GSM art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination- one side on cover mat finished, 100 Pages or more, Fabrication- Section swing with perfect glue paste binding.	Less than 1,000	
			1,001-3,000	
			3,001 & above	
			10,001 to 50,000	
			More than 50,001	
13.	Register I	Size-8.5"x11", Cover- 300 GSM Art board, multi colour both side printing with lamination, Text pages- 100 GSM Maplitho Ballarpur Industries Ltd., 100 pages or more. Single /Multi colour single side printing, Fabrication- Center stitch/Perfect Binding with glue paste binding.	Less than 100	
			101 to 1,000	
			1,001-10,000	
			10,001-50,000	
			50,001 and above	
14.	Register II	Size-8.5"x11", Cover- 300 GSM Art board, multi colour both side printing with lamination, Text pages- 100 GSM Maplitho Ballarpur Industries Ltd., 100 pages or more. Single /Multi colour both side printing, Fabrication- Center stitch/Perfect Binding with glue paste binding.	Less than 100	
			101 to 1,000	
			1,001-10,000	
			10,001-50,000	
			50,001 and above	
15.	Register III	Size-11"x17", Cover- 300 GSM Art board, multi colour both side printing with lamination, Text pages- 100 GSM Maplitho Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 100 pages or more. Single /Multi colour single side printing, Fabrication- Center stitch/Perfect Binding with glue paste binding.	Less than 100	
			101 to 1,000	
			1,000-10,000	
			10,001-50,000	
			50,001 and above	
16.	Register IV	Size-11"x17", Cover- 300 GSM Art board, multi colour both side printing with lamination, Text pages- 100 GSM Maplitho Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 100 pages or more. Single /Multi colour both side printing, Fabrication- Center stitch/Perfect Binding with glue paste binding.	Less than 100	
			101 to 1,000	
			1,000-10,000	
			10,001-50,000	
			50,001 and above	
17.	RCH Register	Size-11"x17", Text page- 100 GSM maplitho paper Ballarpur Industries Ltd. (BILT), No. of Pages – Approx 420 pages, both side multi color printing, Cover Paper – Four color cover printed on 130 GSM Art Paper & pasted on 24 Oz. Mill Board with Lamination, Fabrication - Hard Case Binding with Section sewing with glue pasting / perfect binding.	Upto 10,000	
			10,001-40,000	
			40,001-80,000	
			80,001-100,000 & more	
18.	Receipt/Voucher Book	Triplicate 1 st two pages perforated and third page fixed, Cover - 120 GSM MG/ Pulp paper, Cover paper may be coloured Inner page- 60 GSM, Text paper in three different colours, Sirpur/Andhra/Ballarpur Industries Ltd. Text pages 3 x 50 sets = 150 pages, Fabrication – side stapled with numbering and perforation.		
			Size 8.5"x5.5"	1-2,000
				2,001-5,000
				5,001-10,000
				10,001-20,000 & more
			Size 8.5"x11"	1-2,000
				2,001-5,000
				5,001-10,000
				10,001-20,000 & more

19.	Mobile Kunji Deck of Cards with Pouch/Bag/Cover.	Specifications of Mobile Kunji Deck of Cards : Size-15cmx8cm, No. of Pages: 50, Printing-Back to back, Colour-4 colour, Binding-Laple/key ring, Finish: Gloss UV Coating, Material: PVC sheet (490 micron), Cover: A pouch/bag for the deck of cards, Ring: Stainless steel ring (50 mm diameter, 2 mm thickness) with interlock for holding the deck of cards together. Specifications of Pouch/Bag/Cover for Mobile Kunji Deck of Cards : Size of Pouch/Bag/Cover is mentioned in the diagram of Pouch/Bag/Cover in Annexure-6. Material of pouch/Cover/Bag: Neoprene like PU coated material, Black in colour & Velcro on flap to close pouch, Quality: Fine stitching, Piping on the flap and correct dye cut.	1 to 10,000
			10,001 to 50,000
			50,001 & above.
20.	Fly Wheel (FP) (योग्यता मापदण्ड चक्र)	Size: 22.5" x 8.5", Three Fold Folder (Finished Size : 7.5" x 8.5"), multi color both sides printing on 300 GSM Art Board, with Lamination and folding, 2 Nos. of Fly wheel diagram chart in Round Shape, (Size : 7.5" x 7.5" and 5.5" x 5.5") with die punch and repeat in center, Multi Color Both Sides Printing on 300 GSM Art Board and Lamination both sides	5,000
			5,001-20,000
			20,001 & above
21.	Different types of Modules/ Books	Size-8.5" X 11", Cover Paper- 300 GSM Mat art board, Cover Printing- Four colour both sides, Text Paper- 130 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination- one side on cover mat finished, Fabrication- section sewing with perfect glue paste binding.	No. of Text Page -4 to 40 (Including Cover page)
			Less than 3000 Modules/ books
			3001-10,000
			10,001-20,000
			20,001-50,000
			50,001-100,000
			No. of Text Page 41 to 80 (Including Cover page)
			Less than 3000 Modules/ books
			3001-10,000
			10,001-20,000
			20,001-50,000
			50,001-100,000
			No. of Text Page 81 to 120 (Including Cover page)
			Less than 3000 Modules/ books
			3001-10,000
			10,001-20,000
			20,001-50,000
			50,001-100,000
			No. of Text Page -121 to 160 (Including Cover page)
			Less than 3000 Modules/ books
			3001-10,000
			10,001-20,000
			20,001-50,000
			50,001-100,000
			No. of Text Page -161 to 200 (Including Cover page)
Less than 3000 Modules/ books			
3001-10,000			
10,001-20,000			
20,001-50,000			
50,001-100,000			
No. of Text Page -201 to 240 (Including Cover page)			
Less than 3000 Modules/ books			
3001-10,000			
10,001-20,000			
20,001-50,000			
50,001-100,000			

		No. of Text Page -241 to 280 (Including Cover page)	Less than 3000 Modules/ books
			3001-10,000
			10,001-20,000
			20,001-50,000
			50,001-100,000
		No. of Text Page -281 to 320 (Including Cover page)	Less than 3000 Modules/ books
			3001-10,000
			10,001-20,000
			20,001-50,000
			50,001-100,000
		No. of Text Page -321 to 360 & above (Including Cover page)	Less than 3000 Modules/ books
			3001-10,000
			10,001-20,000
			20,001-50,000
			50,001-100,000
22.	Sanjivani Format/Pad	Size 8.5" X 11" , BILT Art paper, 130 GSM, Multi coloured one side printing.	Upto 50,000
			50,001-2,00,000
			2,00,001-10,00,000 & more

CATEGORY- 'B'

S.No.	Items	Specifications	Expected Quantity
1.	Printing on Metal Sheet/Tin Plate	Size : 34" X 22", Printing : 4 Colour, One Side Printing Material : CR Sheet, Thickness -0 .22 mm +_ 0.01mm, Anti-rust coating on back side of the plate, Eyelets (holes) on all four corners for fixing it on wall.	Less than 5000 piece
			5001-10000
			10001-20000
			20001-50000
			50001-100000 & more
2.	Printing on Metal Sheet/Tin Plate	Size : 34" X 22", Printing : 4 Colour, One Side Printing Material : CR Sheet, Thickness -0 .22 mm +_ 0.01mm, Anti-rust coating on back side of the plate, Eyelets (holes) on all four corners for fixing it on wall. Framing on all four sided of printed tin plate with rubber/fibre.	Less than 5000 piece
			5001-10000
			10001-20000
			20001-50000
			50001-100000 & more
3.	Printing on Metal Sheet/Tin Plate	Size : 17" X 22", Printing : 4 Colour, One Side Printing Material : CR Sheet, Thickness -0 .22 mm +_ 0.01mm, Anti-rust coating on back side of the plate, Eyelets (holes) on all four corners for fixing it on wall.	Less than 5000 piece
			5001-10000
			10001-20000
			20001-50000
			50001-100000 & more
4.	Printing on Metal Sheet/Tin Plate	Size : 17" X 22", Printing : 4 Colour, One Side Printing Material : CR Sheet, Thickness -0 .22 mm +_ 0.01mm, Anti-rust coating on back side of the plate, Eyelets (holes) on all four corners for fixing it on wall. Framing on all four sided of printed tin plate with rubber/fibre.	Less than 5000 piece
			5001-10000
			10001-20000
			20001-50000
			50001-100000 & more

CATEGORY-‘C’

S.No.	Items	Specifications	Expected Quantity
1.	Posters	Size-18" x 23", Paper – 80 GSM Maplitho, multi colour, One side printing on Ballarpur Industries Ltd.	Less than 5,000
			5,001 – 20,000
			20,001-1,00,000
			1,00,001-2,00,000
			2,00,001& above
		Size-19" x 29", Paper – 80 GSM Maplitho, multi colour, One side printing on Ballarpur Industries Ltd. (BILT).	Less than 5,000
			5,001 – 20,000
			20,001-1,00,000
			1,00,001-2,00,000
			2,00,001& above
2.	Certificates	Size 11"x8.5", Multi colour - Single/both side printing with lamination, Ivory board 300 GSM.	1-500
			501-2,000
			2,001-5,000
			5,001-10,000 & above
3.	Adhesive Reporting Chart	Size : 15" x 20", Printing : Multi colour, one side, Paper: 130 GSM Art Paper , 1" inch adhesive tapes on top & bottom.	Less than 5000
			5001 - 20000
			5001-20000
			20001-50000
4.	Adhesive Poster	Size : 18" x 23", Printing : Multi colour, One side, Paper : 130 GSM Chromo Art Paper, 3"x1" inch adhesive tapes at corners.	Less than 5000
			5001 - 20000
			5001-20000
			20001-50000
5.	Fly leaf	13.5"x21.75" Open size, Fly Leaf Size 10.25"x13.5", 400 GSM Art Board, Multi colored one side printing, Back side single color printing, Lamination-Front & back, Binding cloth pasting on centre fold, mounting on upper head corner.	1-5000
			5001-10000 & above
			5001-10000 & above
			5001-10000 & above
6.	Booklet/ Guidelines - 1	Size-7.25"x9.25", No. of Pages : 4 to16, Cover Paper - 300 GSM Mat art board, Cover Printing- Four colour both sides, Text Paper - 130 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination - one side on cover mat finished, Fabrication - section sewing with perfect glue paste binding.	Less than 1,000
			1001-5,000
			5,001-10,000
			10,001 & above
7.	Booklet/ Guidelines - 2	Size-7.25"x9.25", No. of Pages : 17 to32, Cover Paper - 300 GSM Mat art board, Cover Printing- Four colour both sides, Text Paper - 130 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination - one side on cover mat finished, Fabrication - section sewing with perfect glue paste binding.	Less than 1,000
			1001-5,000
			5,001-10,000
			10,001 & above
8.	Booklet/ Guidelines - 3	Size-7.25"x9.25", No. of Pages : 33 to 64, Cover Paper - 300 GSM Mat art board, Cover Printing- Four colour both sides, Text Paper - 130 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination - one side on cover mat finished, Fabrication - section sewing with perfect glue paste binding.	Less than 1,000
			1001-5,000
			5,001-10,000
			10,001 & above
9.	Telephone Directory	Size 5.5"x4.25" Text Paper - 70 GSM Maplitho – Single Colour Printing, Cover - 220 GSM Artboard – 4 Colour Printing with lamination, Fabrication: Section sewing with perfect binding.	-
			-
		Text Pages upto 40.	Less than 500
			501-1,000
			1,001-1,500
		Text Pages 41 to 80.	1,501-2,000 & more
			Less than 500
			501-1,000
			1,001-1,500
		10.	Letter Pads
1,001-10,000			
10,001-20,000			
20,001-50,000 & above			
11.	Notesheet Pad	Paper Size- 8.25"x13.25", Laser Paper 90 GSM, Printing- both side single colour, Binding 100 sheets of one pad.	1-1,000
			1,001-10,000
			10,001-20,000
			20,001-50,000 & above

12.	Visiting Cards- 1 (pack of 100 pcs).	Single / Double/Multi Colour printing Britania Company card 350 GSM without embossing.	1-100	
			101-1,000	
			1001-2,000	
			2001-5,000 & above	
13.	Visiting Cards-II (pack of 100 pcs.)	Single / Double/Multi Colour printing Britania Company card 350 GSM with embossing of GOI emblem.	1-100	
			101-1,000	
			1001-2,000	
			2001-5,000 & above	
14.	Hand bills	Size - 8.5" x 5.5", 100 GSM Maplitho paper Ballarpur Industries Ltd. (BILT)	Single colour both side printing.	
				1-10,000
				10,001-50,000
				50,001-100,000
			Multi colour both side printing	100,001-500,000 & above
				1-10,000
				10,001-50,000
				50,001-100,000
15.	Diary	Size 7.25"x9. 5", Pages: approx 440 on 70 GSM maplitho Ballarpur Industries Ltd. (BILT)-single/double color printing, Color Insertion Text: No. of pages approx 16, Four colour on 130 GSM Art Paper, Cover Paper – Four color cover printed on 170 GSM Art Board & pasted on 28 Oz. Mill Board with Matt Lamination, Section sewing with perfect binding & cover will be Hard Case Bounded.	Less than 500	
			501-1000	
			1001-1500	
			1501-2000 and above	
16.	Calendar-1	Size 14" x 19", No. of Leaves - 6, Both side 4 color printing, 130 GSM Ballarpore Art paper, Spiral Binding with hanging rod on top side.	1-1,000	
			1001-5,000	
			5001-10,000	
			10001-20,000 & above	
17.	Calendar-2	Size 18" x 23", No. of Leaves -6, Both side 4 color printing, 130 GSM Ballarpore Art paper, good quality Tin mounting on top side with thread hanger.	1-1,000	
			1001-5,000	
			5001-10,000	
			10001-20,000 & above	
18.	Different types of forms	Size 8.5" x 11", Single colour, Single side printing, Paper Maplitho 70 GSM Ballarpore Industries Ltd. (BILT), Packing 500 forms in each packet with craft paper binding.	Less than 1,000	
			1001-5000	
			5001-20000	
			20001 and above	
		Size 8.5" x 11", Single colour, Both side printing, Paper Maplitho 70 GSM (BILT), Packing 500 forms in each packet with craft paper binding.	Less than 1,000	
			1001-5000	
			5001-20000	
			20001 and above	
19.	Different types of Form's Pad	Size 8.5" x 11", Single colour, Single side printing, Cover & Text Pages : Paper Maplitho 70 GSM Ballarpore Industries Ltd., No. of sheets 204 in each pad with perfect binding.	Less than 1,000	
			1001-5000	
			5001-20000	
			20001-50000 & above	
		Size 8.5" x 11", Single colour, both side printing, Cover & Text Pages : Paper Maplitho 70 GSM Ballarpore Papermill, No. of sheets 204 in each pad with perfect binding.	Less than 1,000	
			1001-5000	
			5001-20000	
			20001-50000 & above	
20.	Stickers	Size - 11"x8.5", Multi colour, Avery dennison 75 GSM gumming sheet with 60 GSM release paper.	1-2,000	
			2,001 & above	
		Size - 11"x17", Multi colour, Avery dennison 75 GSM gumming sheet with 60 GSM release paper.	1-2,000	
			2,001 & above	
21.	Folders	Size 8.5" X 11" , Ballarpore Art paper, 130 GSM, Multi coloured one side / both side printing, one fold folder.	Upto 50,000	
			50,001-1,00,000	
			1,00,001-2,00,000 & more	
22.	Pamphlets	Size – 8.5" x 11", 90 gsm Maplitho Paper, Single/both side printing.	Single Color printing	
				1-50,000
				50,001-1,00,000
				1,00,001-5,00,000
				5,00,001-10,00,000 & above

		Four Color printing	1-50,000 50,001-1,00,000 1,00,001-5,00,000 5,00,001-10,00,000 & above
23.	Flip Charts/Table Stand Calendar	300 GSM Ballarpur Art Board, Both side four color printing, Stand 28 oz. Hard board pasted on 130 GSM laminated art paper with spiral binding on top side.	
		Size- 10.5"x13.5", No. of sheets-18	1-1000 1001-5000 5001-20000 20001-50000 & above
		Size- 10.5"x13.5", No. of sheets-36	1001-5000 5001-20000 20001-50000 & above
		Size- 8.5"x11", No. of sheets-18	1-1000 1001-5000 5001-20000 20001-50000 & above
		Size- 8.5"x11", No. of sheets-36	1-1000 1001-5000 5001-20000 20001-50000 & above
24.	Note Pad/Writing Pad	Size: 8.5"x5.5, No. of pages: 48, Cover: 130 GSM Art Paper, four color printing, Text: Single colour, 70 GSM Maplitho Paper.	1 to 3000 3001 & above
25.	Tally summary Sheet Register	Size-11"x17" , Cover-300 GSM Art board with lamination on cover, single/multi color one side printing, Text pages-100 GSM Maplitho Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 120 pages or more, single colour printing, Fabrication-Side stitch with perfect binding	< 500 book 501 to 5000 5001 and above
26.	Different Type of Registers	Size-11"x17", Text page- 100 GSM maplitho paper Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 100 pages and above, both side printing single/ multi color, Cover Paper – Four color cover printed on 130 GSM Art Paper & pasted on 24 Oz. Mill Board with Lamination, Fabrication - Hard Case Binding with Section sewing with glue pasting / perfect binding.	Less than 100 101-500 501-1000 1001 & above
		Size-8.5"x14", Text page- 100 GSM maplitho paper Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 100 pages and above, both side printing single/ multi color, Cover Paper – Four color cover printed on 130 GSM Art Paper & pasted on 24 Oz. Mill Board with Lamination, Fabrication - Hard Case Binding with Section sewing with glue pasting / perfect binding	Less than 100 101-500 501-1000 1001 & above
		Size-8.5"x11", Text page- 100 GSM maplitho paper Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 100 pages and above, both side printing single/ multi color, Cover Paper – Four color cover printed on 130 GSM Art Paper & pasted on 24 Oz. Mill Board with Lamination, Fabrication - Hard Case Binding with Section sewing with glue pasting / perfect binding	Less than 100 101-500 501-1000 1001 & above
27.	Different types of Flip Books	Size-8.5" X 11" Cover Paper- 300 GSM Mat art board, Cover Printing- four colour both sides, Text Paper- 130 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination- One side on cover mat finished, Fabrication- Spiral binding.	-
		No. of Text Page -4 to 40 (Including Cover page)	Less than 3,000 books 3,001-10,000 10,001-20,000 20,001-50,000 50,001-100,000
		No. of Text Page 41 to 80 (Including Cover page)	Less than 3,000 books 3,001-10,000 10,001-20,000 20,001-50,000 50,001-100,000

		No. of Text Page 81 to 120 (Including Cover page)	Less than 3,000 books
			3,001-10,000
			10,001-20,000
			20,001-50,000
			50,001-100,000
		No. of Text Page -121 to 160 (Including Cover page)	Less than 3,000 books
			3,001-10,000
			10,001-20,000
			20,001-50,000
			50,001-100,000
		No. of Text Page -161 to 200 (Including Cover page)	Less than 3,000 books
			3,001-10,000
			10,001-20,000
			20,001-50,000
			50,001-100,000
		No. of Text Page -201 to 240 (Including Cover page)	Less than 3,000 books
			3,001-10,000
			10,001-20,000
			20,001-50,000
			50,001-100,000
No. of Text Page -241 to 280 (Including Cover page)	Less than 3,000 books		
	3,001-10,000		
	10,001-20,000		
	20,001-50,000		
	50,001-100,000		
No. of Text Page -281 to 320 (Including Cover page)	Less than 3,000 books		
	3,001-10,000		
	10,001-20,000		
	20,001-50,000		
	50,001-100,000		
No. of Text Page -321 to 360 & above (Including Cover page)	Less than 3,000 books		
	3,001-10,000		
	10,001-20,000		
	20,001-50,000		
	50,001-100,000		

CATEGORY 'D' 1/4kV M¹/₂

S.No.	Items	Specifications	Expected Quantity
1.	फलेक्स बैनर	फंटलिट फलेक्स प्रिंट, 10 माइक्रोन्स (स्टार/हानवा/नियो/एस.आर.एफ.), सोल्वेंट तीन पास में बहुरंगीय मुद्रण, चारों कोण पर 0.5 ईच डायमीटर का आईलेट	1 से 300 वर्गफीट तक
			301 से 1000 वर्गफीट तक
			1001 से 10000 वर्गफीट तक
			10001 से 50000 वर्गफीट तक
			50001 से अधिक वर्गफीट तक
2.	होर्डिंग फलेक्स बैनर	फंटलिट फलेक्स प्रिंट, 13 माइक्रोन्स (ब्लैक माम्बा), सोल्वेंट तीन पास में बहुरंगीय मुद्रण, चारों कोण पर 04 ईच डायमीटर का पॉकेट	1 से 300 वर्गफीट तक
			301 से 1000 वर्गफीट तक
			1001 से 10000 वर्गफीट तक
			10001 से 50000 वर्गफीट तक
			50001 से अधिक वर्गफीट तक
3.	फलेक्स कैलेण्डर	फंटलिट फलेक्स प्रिंट, 13 माइक्रोन्स (स्टार/हानवा/नियो/एस.आर.एफ.), एक तरफ सोल्वेंट बहुरंगीय मुद्रण फलेक्स के उपरी एवं निचले भागों पर प्लास्टिक पाईप की गोलाई -3/4" (पौन ईच डायमीटर), प्लास्टिक पाईप का घनत्व - 1.5 मिली मीटर, अग्र भाग के पाईप के दोनों तरफ उच्च गुणवत्ता का कैप जिससे उपयुक्त आकार में उपर की ओर नायलॉन डोरी निकला रहेगा।	1 से 300 वर्गफीट तक
			301 से 1000 वर्गफीट तक
			1001 से 10000 वर्गफीट तक
			10001 से अधिक वर्गफीट तक
4.	विनाईल स्टीकर	Vinyl on good quality Avery/LG, with 3 pass multi colour, one side printing. Printed on eco solvent HP Machine	1 से 500 वर्गफीट तक
			501 से अधिक वर्गफीट तक
5.	रेडियम विनाईल स्टीकर	Radium Vinyle sticker of good quality with plotter cutting & pasting at State/District Headquater	1 से 500 वर्गफीट तक
			501 से अधिक वर्गफीट तक
6.	रेट्रो विनाईल स्टीकर	Ratro Vinyle sticker of good quality with plotter cutting & pasting at State/District Headquater	1 से 500 वर्गफीट तक
			501 से अधिक वर्गफीट तक
7.	Printing on Acrylic Board	Eco Solvent Vinyle print preferably in HP/Konica and pasted over 2mm Acrylic sheet with pasting/installation and fixing	04 से 100 वर्गफीट तक
			101 से अधिक वर्गफीट तक
		Eco Solvent Vinyle print preferably in HP/Konica and pasted over 3 mm Acrylic Sheet with pasting/installation and fixing	04 से 100 वर्गफीट तक
			101 से अधिक वर्गफीट तक
8.	Printing on Sun Board	Eco Solvent Vinyle print preferably in HP/Konica and pasted over 2mm Sunboard sheet with pasting/installation and fixing	04 से 100 वर्गफीट तक
			101 से अधिक वर्गफीट तक
		Eco Solvent Vinyle print preferably in HP/Konica and pasted over 3mm Sunboard sheet with pasting/installation and fixing	04 से 100 वर्गफीट तक
			101 से अधिक वर्गफीट तक
9.	क्लॉथ बैनर	नेहरू बाग/हत्था (लट्ठा कपड़ा) पर मुद्रण, आकार - लंबाई 2 मीटर एवं चौड़ाई 0.75 मीटर, एक रंगीय/बहुरंगीय मुद्रण, बायीं एवं दाहिनी दोनों छोर पर विभिन्न स्थलों पर टांगने हेतु सिलाई होना चाहिए।	बैनर की संख्या एवं आकार (प्रति बैनर 2 मीटर X 0.75 मीटर)
			1 से 200 प्रति
			201 से 500 प्रति
			501 से 1000 प्रति
			1001 से 5000 प्रति
			5001 से 10000 प्रति
10001 से अधिक प्रतियाँ			

ANNEXURE - 2 (Production Capacity)

fufonk ea emzk grq fu fufukdr dkV ^, *] ^clj ^l f , oa M* ea of. kZ fofku izlkj ds l kfxz ka dh l kexholj mR knu {kerk grqfu/kZj r i i = %

CATEGORY-'A' 1/2 dkV ^, *1/2

S.No.	Items	Specifications	Production Capacity (per unit per day)
1.	MCH Cards	Size-11.75"x4.2"x 7 Fold (11.75"x29.4" Finished Size) Colour – 4 colour both side printing. Paper-170 GSM Art paper C2S, Ballarpur Industries Ltd. (BILT), Fabrication – 7 Fold folding	
2.	WIFS Card	Size-8.5"x11", Paper- Art Board 300 GSM, Printing- Single / Both side multi colour printing.	
3.	Folder/Card-1	Size-8.5"x11", Paper- Art Board (BILT) 300 GSM, Printing- Single side multi colour printing.	
4.	Folder/Card-2	Size-8.5"x11", Paper- Art Board (BILT) 300 GSM, Printing- Both side multi colour printing.	
5.	Folder/Card-3	Size-8.5"x11", Paper- Art Paper (BILT) 170 GSM, Printing- Single side multi colour printing.	
6.	Folder/Card-4	Size-8.5"x11", Paper- Art Paper (BILT) 170 GSM, Printing- Both side multi colour printing.	
7.	RBSK Card (0-6 yrs)	Size-8.5"x11", No. of Pages-4, Paper- Art Paper (BILT) 170 GSM, Printing- Both side multi colour printing, Fabrication - One fold folding	
8.	RBSK Card (6-18 yrs)	Size-8.5"x11", No. of Pages-2, Paper- Art Paper (BILT) 170 GSM, Printing- Both side multi colour printing.	
9.	Comics	Size- 8.5" X11" Text & Cover:- Colour- multi colour both side printing, Paper-130 GSM Mat art paper (BILT), Fabrication -Centre stitch binding. No. of pages – 16	
10.	Pocket Book	Size-4.25" X 5.5" Cover & Text Paper- 130 GSM Mat art paper (BILT), Printing- four colour both side, Lamination - one side on cover mat finished, Fabrication - Section sewing with perfect glue paste binding/centre stitch.	
		No. of Text Page -04 to 16 (Including Cover page)	
		No. of Text Page -17 to 32 (Including Cover page)	

11.	Booklet I	Size-8.5" X 5.5" Cover Paper- 300 GSM Mat art board, Cover Printing- four colour Text Paper- 170 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination- one side on cover mat finished, 100 Pages or more, Fabrication- section swing with perfect glue paste binding.	
12.	Booklet II	Size-8.5" X 5.5" Cover Paper- 300 GSM Art board, Cover Printing- four colour Text Paper- 130 GSM art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination- one side on cover mat finished, 100 Pages or more, Fabrication- Section swing with perfect glue paste binding.	
13.	Register I	Size-8.5"x11", Cover- 300 GSM Art board, multi colour both side printing with lamination, Text pages- 100 GSM Maplitho Ballarpur Industries Ltd., 100 pages or more. Single /Multi colour single side printing, Fabrication- Center stitch/Perfect Binding with glue paste binding.	
14.	Register II	Size-8.5"x11", Cover- 300 GSM Art board, multi colour both side printing with lamination, Text pages- 100 GSM Maplitho Ballarpur Industries Ltd., 100 pages or more. Single /Multi colour both side printing, Fabrication- Center stitch/Perfect Binding with glue paste binding.	
15.	Register III	Size-11"x17", Cover- 300 GSM Art board, multi colour both side printing with lamination, Text pages- 100 GSM Maplitho Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 100 pages or more. Single /Multi colour single side printing, Fabrication- Center stitch/Perfect Binding with glue paste binding.	
16.	Register IV	Size-11"x17", Cover- 300 GSM Art board, multi colour both side printing with lamination, Text pages- 100 GSM Maplitho Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 100 pages or more. Single /Multi colour both side printing, Fabrication- Center stitch/Perfect Binding with glue paste binding.	
17.	RCH Register	Size-11"x17", Text page- 100 GSM maplitho paper Ballarpur Industries Ltd. (BILT), No. of Pages – Approx 420 pages, both side multi color printing, Cover Paper – Four color cover printed on 130 GSM Art Paper & pasted on 24 Oz. Mill Board with Lamination, Fabrication - Hard Case Binding with Section sewing with glue pasting / perfect binding.	
18.	Receipt/Voucher Book	Triplicate 1 st two pages perforated and third page fixed, Cover - 120 GSM MG/ Pulp paper, Cover paper may be coloured Inner page- 60 GSM, Text paper in three different colours, Sirpur/Andhra/Ballarpur Industries Ltd. Text pages 3 x 50 sets = 150 pages, Fabrication – side stapled with numbering and perforation.	
		Size 8.5"x5.5"	
		Size 8.5"x11"	

19.	Mobile Kunji Deck of Cards with Pouch/Bag/Cover.	<p>Specifications of Mobile Kunji Deck of Cards : Size-15cmx8cm, No. of Pages: 50, Printing-Back to back, Colour-4 colour, Binding-Laple/key ring, Finish: Gloss UV Coating, Material: PVC sheet (490 micron), Cover: A pouch/bag for the deck of cards, Ring: Stainless steel ring (50 mm diameter, 2 mm thickness) with interlock for holding the deck of cards together. Specifications of Pouch/Bag/Cover for Mobile Kunji Deck of Cards : Size of Pouch/Bag/Cover is mentioned in the diagram of Pouch/Bag/Cover in Annexure-6. Material of pouch/Cover/Bag: Neoprene like PU coated material, Black in colour & Velcro on flap to close pouch, Quality: Fine stitching, Piping on the flap and correct dye cut.</p>	
20.	Fly Wheel (FP) (योग्यता मापदण्ड चक्र)	<p>Size: 22.5" x 8.5", Three Fold Folder (Finished Size : 7.5" x 8.5"), multi color both sides printing on 300 GSM Art Board, with Lamination and folding, 2 Nos. of Fly wheel diagram chart in Round Shape, (Size : 7.5" x 7.5" and 5.5" x 5.5") with die punch and repeat in center, Multi Color Both Sides Printing on 300 GSM Art Board and Lamination both sides</p>	
21.	Different types of Modules/ Books	<p>Size-8.5" X 11", Cover Paper- 300 GSM Mat art board, Cover Printing- Four colour both sides, Text Paper- 130 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination- one side on cover mat finished, Fabrication- section sewing with perfect glue paste binding.</p> <p>No. of Text Page -4 to 40 (Including Cover page)</p> <p>No. of Text Page 41 to 80 (Including Cover page)</p> <p>No. of Text Page 81 to 120 (Including Cover page)</p> <p>No. of Text Page -121 to 160 (Including Cover page)</p> <p>No. of Text Page -161 to 200 (Including Cover page)</p> <p>No. of Text Page -201 to 240 (Including Cover page)</p>	

		No. of Text Page -241 to 280 (Including Cover page)	
		No. of Text Page -281 to 320 (Including Cover page)	
		No. of Text Page -321 to 360 & above (Including Cover page)	
22.	Sanjivani Format/Pad	Size 8.5" X 11" , BILT Art paper, 130 GSM, Multi coloured one side printing.	

CATEGORY- 'B'

S.No.	Items	Specifications	Production Capacity (per unit per day)
1.	Printing on Metal Sheet/Tin Plate	Size : 34" X 22", Printing : 4 Colour, One Side Printing Material : CR Sheet, Thickness -0 .22 mm +_ 0.01mm, Anti-rust coating on back side of the plate, Eyelets (holes) on all four corners for fixing it on wall.	
2.	Printing on Metal Sheet/Tin Plate	Size : 34" X 22", Printing : 4 Colour, One Side Printing Material : CR Sheet, Thickness -0 .22 mm +_ 0.01mm, Anti-rust coating on back side of the plate, Eyelets (holes) on all four corners for fixing it on wall. Framing on all four sided of printed tin plate with rubber/fibre.	
3.	Printing on Metal Sheet/Tin Plate	Size : 17" X 22", Printing : 4 Colour, One Side Printing Material : CR Sheet, Thickness -0 .22 mm +_ 0.01mm, Anti-rust coating on back side of the plate, Eyelets (holes) on all four corners for fixing it on wall.	
4.	Printing on Metal Sheet/Tin Plate	Size : 17" X 22", Printing : 4 Colour, One Side Printing Material : CR Sheet, Thickness -0 .22 mm +_ 0.01mm, Anti-rust coating on back side of the plate, Eyelets (holes) on all four corners for fixing it on wall. Framing on all four sided of printed tin plate with rubber/fibre.	

CATEGORY-‘C’

S.No.	Items	Specifications	Production Capacity (per unit per day)
1.	Posters	Size-18" x 23", Paper – 80 GSM Maplitho, multi colour, One side printing on Ballarpur Industries Ltd.	
		Size-19" x 29", Paper – 80 GSM Maplitho, multi colour, One side printing on Ballarpur Industries Ltd. (BILT).	
2.	Certificates	Size 11"x8.5", Multi colour - Single/both side printing with lamination, Ivory board 300 GSM.	
3.	Adhesive Reporting Chart	Size : 15" x 20", Printing : Multi colour, one side, Paper: 130 GSM Art Paper , 1" inch adhesive tapes on top & bottom.	
4.	Adhesive Poster	Size : 18" x 23", Printing : Multi colour, One side, Paper : 130 GSM Chromo Art Paper, 3"x1" inch adhesive tapes at corners.	
5.	Fly leaf	13.5"x21.75" Open size, Fly Leaf Size 10.25"x13.5", 400 GSM Art Board, Multi colored one side printing, Back side single color printing, Lamination-Front & back, Binding cloth pasting on centre fold, mounting on upper head corner.	
6.	Booklet/ Guidelines - 1	Size-7.25"x9.25", No. of Pages : 4 to16, Cover Paper - 300 GSM Mat art board, Cover Printing- Four colour both sides, Text Paper - 130 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination - one side on cover mat finished, Fabrication - section sewing with perfect glue paste binding.	
7.	Booklet/ Guidelines - 2	Size-7.25"x9.25", No. of Pages : 17 to32, Cover Paper - 300 GSM Mat art board, Cover Printing- Four colour both sides, Text Paper - 130 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination - one side on cover mat finished, Fabrication - section sewing with perfect glue paste binding.	
8.	Booklet/ Guidelines - 3	Size-7.25"x9.25", No. of Pages : 33 to 64, Cover Paper - 300 GSM Mat art board, Cover Printing- Four colour both sides, Text Paper - 130 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination - one side on cover mat finished, Fabrication - section sewing with perfect glue paste binding.	
9.	Telephone Directory	Size 5.5"x4.25" Text Paper - 70 GSM Maplitho – Single Colour Printing, Cover - 220 GSM Artboard – 4 Colour Printing with lamination, Fabrication: Section sewing with perfect binding.	
		Text Pages upto 40.	
		Text Pages 41 to 80.	
10.	Letter Pads	Size- A4, Executive Bond paper 100 GSM, Multi Colour printing, 100 Pages in each pad.	
11.	Notesheet Pad	Paper Size- 8.25"x13.25", Laser Paper 90 GSM, Printing- both side single colour, Binding 100 sheets of one pad.	

12.	Visiting Cards- 1 (pack of 100 pcs).	Single / Double/Multi Colour printing Britania Company card 350 GSM without embossing.	
13.	Visiting Cards-II (pack of 100 pcs.)	Single / Double/Multi Colour printing Britania Company card 350 GSM with embossing of GOI emblem.	
14.	Hand bills	Size - 8.5" x 5.5", 100 GSM Maplitho paper Ballarpur Industries Ltd. (BILT)	
		Single colour both side printing.	
		Multi colour both side printing	
15.	Diary	Size 7.25"x9. 5", Pages: approx 440 on 70 GSM maplitho Ballarpur Industries Ltd. (BILT)-single/double color printing, Color Insertion Text: No. of pages approx 16, Four colour on 130 GSM Art Paper, Cover Paper – Four color cover printed on 170 GSM Art Board & pasted on 28 Oz. Mill Board with Matt Lamination, Section sewing with perfect binding & cover will be Hard Case Bounded.	
16.	Calendar-1	Size 14" x 19", No. of Leaves - 6, Both side 4 color printing, 130 GSM Ballarpore Art paper, Spiral Binding with hanging rod on top side.	
17.	Calendar-2	Size 18" x 23", No. of Leaves -6, Both side 4 color printing, 130 GSM Ballarpore Art paper, good quality Tin mounting on top side with thread hanger.	
18.	Different types of forms	Size 8.5" x 11", Single colour, Single side printing, Paper Maplitho 70 GSM Ballarpore Industries Ltd. (BILT), Packing 500 forms in each packet with craft paper binding.	
		Size 8.5" x 11", Single colour, Both side printing, Paper Maplitho 70 GSM (BILT), Packing 500 forms in each packet with craft paper binding.	
19.	Different types of Form's Pad	Size 8.5" x 11", Single colour, Single side printing, Cover & Text Pages : Paper Maplitho 70 GSM Ballarpore Industries Ltd., No. of sheets 204 in each pad with perfect binding.	
		Size 8.5" x 11", Single colour, both side printing, Cover & Text Pages : Paper Maplitho 70 GSM Ballarpore Papermill, No. of sheets 204 in each pad with perfect binding.	
20.	Stickers	Size - 11"x8.5", Multi colour, Avery dennison 75 GSM gumming sheet with 60 GSM release paper.	
		Size - 11"x17", Multi colour, Avery dennison 75 GSM gumming sheet with 60 GSM release paper.	
21.	Folders	Size 8.5" X 11" , Ballarpore Art paper, 130 GSM, Multi coloured one side / both side printing, one fold folder.	
22.	Pamphlets	Size – 8.5" x 11", 90 gsm Maplitho Paper, Single/both side printing.	
		Single Color printing	

		Four Color printing	
23.	Flip Charts/Table Stand Calendar	300 GSM Ballarpur Art Board, Both side four color printing, Stand 28 oz. Hard board pasted on 130 GSM laminated art paper with spiral binding on top side.	
		Size- 10.5"x13.5", No. of sheets-18	
		Size- 10.5"x13.5", No. of sheets-36	
		Size- 8.5"x11", No. of sheets-18	
		Size- 8.5"x11", No. of sheets-36	
24.	Note Pad/Writing Pad	Size: 8.5"x5.5, No. of pages: 48, Cover: 130 GSM Art Paper, four color printing, Text: Single colour, 70 GSM Maplitho Paper.	
25.	Tally summary Sheet Register	Size-11"x17" , Cover-300 GSM Art board with lamination on cover, single/multi color one side printing, Text pages-100 GSM Maplitho Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 120 pages or more, single colour printing, Fabrication-Side stitch with perfect binding	
26.	Different Type of Registers	Size-11"x17", Text page- 100 GSM maplitho paper Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 100 pages and above, both side printing single/ multi color, Cover Paper – Four color cover printed on 130 GSM Art Paper & pasted on 24 Oz. Mill Board with Lamination, Fabrication - Hard Case Binding with Section sewing with glue pasting / perfect binding.	
		Size-8.5"x14", Text page- 100 GSM maplitho paper Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 100 pages and above, both side printing single/ multi color, Cover Paper – Four color cover printed on 130 GSM Art Paper & pasted on 24 Oz. Mill Board with Lamination, Fabrication - Hard Case Binding with Section sewing with glue pasting / perfect binding	
		Size-8.5"x11", Text page- 100 GSM maplitho paper Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 100 pages and above, both side printing single/ multi color, Cover Paper – Four color cover printed on 130 GSM Art Paper & pasted on 24 Oz. Mill Board with Lamination, Fabrication - Hard Case Binding with Section sewing with glue pasting / perfect binding	
27.	Different types of Flip Books	Size-8.5" X 11" Cover Paper- 300 GSM Mat art board, Cover Printing- four colour both sides, Text Paper- 130 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination- One side on cover mat finished, Fabrication- Spiral binding.	
		No. of Text Page -4 to 40 (Including Cover page)	
		No. of Text Page 41 to 80 (Including Cover page)	

	No. of Text Page 81 to 120 (Including Cover page)	
	No. of Text Page -121 to 160 (Including Cover page)	
	No. of Text Page -161 to 200 (Including Cover page)	
	No. of Text Page -201 to 240 (Including Cover page)	
	No. of Text Page -241 to 280 (Including Cover page)	
	No. of Text Page -281 to 320 (Including Cover page)	
	No. of Text Page -321 to 360 & above (Including Cover page)	

CATEGORY 'D' 1/2 kV 1/2 M²

S.No.	Items	Specifications	Production Capacity (per unit per day)
1.	फलेक्स बैनर	फ्रंटलिट फलेक्स प्रिंट, 10 माइक्रोन्स (स्टार/हानवा/नियो/एस.आर.एफ.), सोल्वेंट तीन पास में बहुरंगीय मुद्रण, चारों कोण पर 0.5 ईच डायमीटर का आईलेट	
2.	होर्डिंग फलेक्स बैनर	फ्रंटलिट फलेक्स प्रिंट, 13 माइक्रोन्स (ब्लैक माम्बा), सोल्वेंट तीन पास में बहुरंगीय मुद्रण, चारों कोण पर 04 ईच डायमीटर का पॉकेट	
3.	फलेक्स कैलेण्डर	फ्रंटलिट फलेक्स प्रिंट, 13 माइक्रोन्स (स्टार/हानवा/नियो/एस.आर.एफ.), एक तरफ सोल्वेंट बहुरंगीय मुद्रण फलेक्स के उपरी एवं निचले भागों पर प्लास्टिक पाईप की गोलाई -3/4" (पौन ईच डायमीटर), प्लास्टिक पाईप का घनत्व - 1.5 मिली मीटर, अग्र भाग के पाईप के दोनों तरफ उच्च गुणवत्ता का कैंप जिससे उपयुक्त आकार में उपर की ओर नायलॉन डोरी निकला रहेगा।	
4.	विनाईल स्टीकर	Vinyl on good quality Avery/LG, with 3 pass multi colour, one side printing, Printed on eco solvent HP Machine	
5.	रेडियम विनाईल स्टीकर	Radium Vinyle sticker of good quality with plotter cutting & pasting at State/District Headquater	
6.	रेट्रो विनाईल स्टीकर	Ratro Vinyle sticker of good quality with plotter cutting & pasting at State/District Headquater	
7.	Printing on Acrylic Board	Eco Solvent Vinyle print preferably in HP/Konica and pasted over 2mm Acrylic sheet with pasting/installation and fixing	
		Eco Solvent Vinyle print preferably in HP/Konica and pasted over 3 mm Acrylic Sheet with pasting/installation and fixing	
8.	Printing on Sun Board	Eco Solvent Vinyle print preferably in HP/Konica and pasted over 2mm Sunboard sheet with pasting/installation and fixing	
		Eco Solvent Vinyle print preferably in HP/Konica and pasted over 3mm Sunboard sheet with pasting/installation and fixing	
9.	क्लॉथ बैनर	नेहरू बाग/हत्था (लट्टा कपड़ा) पर मुद्रण, आकार - लंबाई 2 मीटर एवं चौड़ाई 0.75 मीटर, एक रंगीय/बहुरंगीय मुद्रण, बायीं एवं दाहीनी दोनों छोर पर विभिन्न स्थलों पर टांगने हेतु सिलाई होना चाहिए।	

ANNEXURE - 3 (Format for Financial Bid)

fufonk ea epzk grqfu/ukdr dkV ^, *] ^cl] ^l li* , oa^Mif ea of. k* fofHu i zlkj ds l kfxz kadh foUk, fcM Mkyus grqfu/ukjr i i = %अन्य प्रपत्र में उद्धृत दर पर विचार नहीं किया जायेगा।

CATEGORY-‘A’ 1/2 dkV ^, *1/2

S.No.	Items	Specifications	Expected Quantity	Rate to be Quoted Per Unit or Per Page as mentioned below	
1.	MCH Cards	Size-11.75"x4.2"x 7 Fold (11.75"x29.4" Finished Size) Colour – 4 colour both side printing. Paper-170 GSM Art paper C2S, Ballarpur Industries Ltd. (BILT), Fabrication – 7 Fold folding	Up to 80,000	Per Card	
			80,001-1,60,000	Per Card	
			1,60,001-2,40,000	Per Card	
			2,40,001 & more	Per Card	
2.	WIFS Card	Size-8.5"x11", Paper- Art Board 300 GSM, Printing- Single / Both side multi colour printing.	Up to 1,00,000	Per Card	
			1,00,001-10,00,000	Per Card	
			10,00,001-50,00,000	Per Card	
			50,00,001-100,00,000	Per Card	
3.	Folder/Card-1	Size-8.5"x11", Paper- Art Board (BILT) 300 GSM, Printing- Single side multi colour printing.	Up to 1,00,000	Per Card/Folder	
			1,00,001-10,00,000	Per Card/Folder	
			10,00,001-50,00,000	Per Card/Folder	
			50,00,001-100,00,000	Per Card/Folder	
4.	Folder/Card-2	Size-8.5"x11", Paper- Art Board (BILT) 300 GSM, Printing- Both side multi colour printing.	Up to 1,00,000	Per Card/Folder	
			1,00,001-10,00,000	Per Card/Folder	
			10,00,001-50,00,000	Per Card/Folder	
			50,00,001-100,00,000	Per Card/Folder	
5.	Folder/Card-3	Size-8.5"x11", Paper- Art Paper (BILT) 170 GSM, Printing- Single side multi colour printing.	Up to 1,00,000	Per Card/Folder	
			1,00,001-10,00,000	Per Card/Folder	
			10,00,001-50,00,000	Per Card/Folder	
			50,00,001-100,00,000	Per Card/Folder	
6.	Folder/Card-4	Size-8.5"x11", Paper- Art Paper (BILT) 170 GSM, Printing- Both side multi colour printing.	Up to 1,00,000	Per Card/Folder	
			1,00,001-10,00,000	Per Card/Folder	
			10,00,001-50,00,000	Per Card/Folder	
			50,00,001-100,00,000	Per Card/Folder	
7.	RBSK Card (0-6 yrs)	Size-8.5"x11", No. of Pages-4, Paper- Art Paper (BILT) 170 GSM, Printing- Both side multi colour printing, Fabrication - One fold folding	Up to 1,00,000	Per Card	
			1,00,001-10,00,000	Per Card	
			10,00,001-50,00,000	Per Card	
			50,00,001-100,00,000	Per Card	
8.	RBSK Card (6-18 yrs)	Size-8.5"x11", No. of Pages-2, Paper- Art Paper (BILT) 170 GSM, Printing- Both side multi colour printing.	Up to 1,00,000	Per Card	
			1,00,001-10,00,000	Per Card	
			10,00,001-50,00,000	Per Card	
			50,00,001-100,00,000	Per Card	
9.	Comics	Size- 8.5" X11" Text & Cover:- Colour- multi colour both side printing, Paper-130 GSM Mat art paper (BILT), Fabrication- Centre stitch binding. No. of pages – 16	< 1,00,000 book	Per Page	
			1,00,001- 2,00,000	Per Page	
			2,00,001- 4,00,000	Per Page	
			4,00,001 & above	Per Page	
10.	Pocket Book	Size-4.25" X 5.5" Cover & Text Paper- 130 GSM Mat art paper (BILT), Printing- four colour both side, Lamination- one side on cover mat finished, Fabrication- Section sewing with perfect glue paste binding/centre stitch.		-	
			No. of Text Page -04 to 16 (Including Cover page)	Less than 3,000 books	Per Page
				3001-10,000	Per Page
				10,001-20,000	Per Page
				20,001-50,000	Per Page
				50,001-1,00,000 & above	Per Page
			No. of Text Page -17 to 32 (Including Cover page)	Less than 3,000 books	Per Page
				3001-10000	Per Page
				10,001-20000	Per Page
				20,001-50000	Per Page
50,001-1,00,000 & above	Per Page				

11.	Booklet I	Size-8.5" X 5.5" Cover Paper- 300 GSM Mat art board, Cover Printing- four colour Text Paper- 170 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination- one side on cover mat finished, 100 Pages or more, Fabrication- section swing with perfect glue paste binding.	Less than 1,000	Per Page	
			1,001-3,000	Per Page	
			3,001 & above	Per Page	
			10,001 to 50,000	Per Page	
			More than 50,001	Per Page	
12.	Booklet II	Size-8.5" X 5.5" Cover Paper- 300 GSM Art board, Cover Printing- four colour Text Paper- 130 GSM art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination- one side on cover mat finished, 100 Pages or more, Fabrication- Section swing with perfect glue paste binding.	Less than 1,000	Per Page	
			1,001-3,000	Per Page	
			3,001 & above	Per Page	
			10,001 to 50,000	Per Page	
			More than 50,001	Per Page	
13.	Register I	Size-8.5"x11", Cover- 300 GSM Art board, multi colour both side printing with lamination, Text pages- 100 GSM Maplitho Ballarpur Industries Ltd., 100 pages or more. Single /Multi colour single side printing, Fabrication- Center stitch/Perfect Binding with glue paste binding.	Less than 100	Per Page	
			101 to 1,000	Per Page	
			1,001-10,000	Per Page	
			10,001-50,000	Per Page	
			50,001 and above	Per Page	
14.	Register II	Size-8.5"x11", Cover- 300 GSM Art board, multi colour both side printing with lamination, Text pages- 100 GSM Maplitho Ballarpur Industries Ltd., 100 pages or more. Single /Multi colour both side printing, Fabrication- Center stitch/Perfect Binding with glue paste binding.	Less than 100	Per Page	
			101 to 1,000	Per Page	
			1,001-10,000	Per Page	
			10,001-50,000	Per Page	
			50,001 and above	Per Page	
15.	Register III	Size-11"x17", Cover- 300 GSM Art board, multi colour both side printing with lamination, Text pages- 100 GSM Maplitho Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 100 pages or more. Single /Multi colour single side printing, Fabrication- Center stitch/Perfect Binding with glue paste binding.	Less than 100	Per Page	
			101 to 1,000	Per Page	
			1,000-10,000	Per Page	
			10,001-50,000	Per Page	
			50,001 and above	Per Page	
16.	Register IV	Size-11"x17", Cover- 300 GSM Art board, multi colour both side printing with lamination, Text pages- 100 GSM Maplitho Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 100 pages or more. Single /Multi colour both side printing, Fabrication- Center stitch/Perfect Binding with glue paste binding.	Less than 100	Per Page	
			101 to 1,000	Per Page	
			1,000-10,000	Per Page	
			10,001-50,000	Per Page	
			50,001 and above	Per Page	
17.	RCH Register	Size-11"x17", Text page- 100 GSM maplitho paper Ballarpur Industries Ltd. (BILT), No. of Pages – Approx 420 pages, both side multi color printing, Cover Paper – Four color cover printed on 130 GSM Art Paper & pasted on 24 Oz. Mill Board with Lamination, Fabrication - Hard Case Binding with Section sewing with glue pasting / perfect binding.	Upto 10,000	Per Page	
			10,001-40,000	Per Page	
			40,001-80,000	Per Page	
			80,001-100,000 & more	Per Page	
18.	Receipt/Voucher Book	TriPLICATE 1 st two pages perforated and third page fixed, Cover - 120 GSM MG/ Pulp paper, Cover paper may be coloured Inner page- 60 GSM, Text paper in three different colours, Sirpur/Andhra/Ballarpur Industries Ltd. Text pages 3 x 50 sets = 150 pages, Fabrication – side stapled with numbering and perforation.			
			Size 8.5"x5.5"	1-2,000	Per Page
				2,001-5,000	Per Page
				5,001-10,000	Per Page
				10,001-20,000 & more	Per Page
			Size 8.5"x11"	1-2,000	Per Page
				2,001-5,000	Per Page
				5,001-10,000	Per Page
				10,001-20,000 & more	Per Page

19.	Mobile Kunji Deck of Cards with Pouch/Bag/Cover.	Specifications of Mobile Kunji Deck of Cards : Size-15cmx8cm, No. of Pages: 50, Printing-Back to back, Colour-4 colour, Binding-Laple/key ring, Finish: Gloss UV Coating, Material: PVC sheet (490 micron), Cover: A pouch/bag for the deck of cards, Ring: Stainless steel ring (50 mm diameter, 2 mm thickness) with interlock for holding the deck of cards together. Specifications of Pouch/Bag/Cover for Mobile Kunji Deck of Cards : Size of Pouch/Bag/Cover is mentioned in the diagram of Pouch/Bag/Cover in Annexure-6. Material of pouch/Cover/Bag: Neoprene like PU coated material, Black in colour & Velcro on flap to close pouch, Quality: Fine stitching, Piping on the flap and correct dye cut.	1 to 10,000	Per MK Deck with Bag
			10,001 to 50,000	Per MK Deck with Bag
			50,001 & above.	Per MK Deck with Bag
20.	Fly Wheel (FP) (योग्यता मापदण्ड चक्र)	Size: 22.5" x 8.5", Three Fold Folder (Finished Size : 7.5" x 8.5"), multi color both sides printing on 300 GSM Art Board, with Lamination and folding, 2 Nos. of Fly wheel diagram chart in Round Shape, (Size : 7.5" x 7.5" and 5.5" x 5.5") with die punch and repeat in center, Multi Color Both Sides Printing on 300 GSM Art Board and Lamination both sides	5,000	Per Fly Wheel
			5,001-20,000	Per Fly Wheel
			20,001 & above	Per Fly Wheel
21.	Different types of Modules/ Books	Size-8.5" X 11", Cover Paper- 300 GSM Mat art board, Cover Printing- Four colour both sides, Text Paper- 130 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination- one side on cover mat finished, Fabrication- section sewing with perfect glue paste binding.	No. of Text Page -4 to 40 (Including Cover page)	
			Less than 3000 Modules/ books	Per Page
			3001-10,000	Per Page
			10,001-20,000	Per Page
			20,001-50,000	Per Page
			50,001-100,000	Per Page
			No. of Text Page 41 to 80 (Including Cover page)	
			Less than 3000 Modules/ books	Per Page
			3001-10,000	Per Page
			10,001-20,000	Per Page
			20,001-50,000	Per Page
			50,001-100,000	Per Page
			No. of Text Page 81 to 120 (Including Cover page)	
			Less than 3000 Modules/ books	Per Page
			3001-10,000	Per Page
			10,001-20,000	Per Page
			20,001-50,000	Per Page
			50,001-100,000	Per Page
			No. of Text Page -121 to 160 (Including Cover page)	
			Less than 3000 Modules/ books	Per Page
			3001-10,000	Per Page
			10,001-20,000	Per Page
			20,001-50,000	Per Page
			50,001-100,000	Per Page
			No. of Text Page -161 to 200 (Including Cover page)	
Less than 3000 Modules/ books	Per Page			
3001-10,000	Per Page			
10,001-20,000	Per Page			
20,001-50,000	Per Page			
50,001-100,000	Per Page			
No. of Text Page -201 to 240 (Including Cover page)				
Less than 3000 Modules/ books	Per Page			
3001-10,000	Per Page			
10,001-20,000	Per Page			
20,001-50,000	Per Page			
50,001-100,000	Per Page			

		No. of Text Page -241 to 280 (Including Cover page)	Less than 3000 Modules/ books	Per Page
			3001-10,000	Per Page
			10,001-20,000	Per Page
			20,001-50,000	Per Page
			50,001-100,000	Per Page
		No. of Text Page -281 to 320 (Including Cover page)	Less than 3000 Modules/ books	Per Page
			3001-10,000	Per Page
			10,001-20,000	Per Page
			20,001-50,000	Per Page
			50,001-100,000	Per Page
		No. of Text Page -321 to 360 & above (Including Cover page)	Less than 3000 Modules/ books	Per Page
			3001-10,000	Per Page
			10,001-20,000	Per Page
			20,001-50,000	Per Page
			50,001-100,000	Per Page
22.	Sanjivani Format/Pad	Size 8.5" X 11" , BILT Art paper, 130 GSM, Multi coloured one side printing.	Upto 50,000	Per Format/Pad
			50,001-2,00,000	Per Format/Pad
			2,00,001-10,00,000 & more	Per Format/Pad

CATEGORY- 'B'

S.No.	Items	Specifications	Expected Quantity	Rate to be Quoted Per Unit as mentioned
1.	Printing on Metal Sheet/Tin Plate	Size : 34" X 22", Printing : 4 Colour, One Side Printing Material : CR Sheet, Thickness -0 .22 mm +_ 0.01mm, Anti-rust coating on back side of the plate, Eyelets (holes) on all four corners for fixing it on wall.	Less than 5000 piece	Per Item
			5001-10000	Per Item
			10001-20000	Per Item
			20001-50000	Per Item
			50001-100000 & more	Per Item
2.	Printing on Metal Sheet/Tin Plate	Size : 34" X 22", Printing : 4 Colour, One Side Printing Material : CR Sheet, Thickness -0 .22 mm +_ 0.01mm, Anti-rust coating on back side of the plate, Eyelets (holes) on all four corners for fixing it on wall. Framing on all four sided of printed tin plate with rubber/fibre.	Less than 5000 piece	Per Item
			5001-10000	Per Item
			10001-20000	Per Item
			20001-50000	Per Item
			50001-100000 & more	Per Item
3.	Printing on Metal Sheet/Tin Plate	Size : 17" X 22", Printing : 4 Colour, One Side Printing Material : CR Sheet, Thickness -0 .22 mm +_ 0.01mm, Anti-rust coating on back side of the plate, Eyelets (holes) on all four corners for fixing it on wall.	Less than 5000 piece	Per Item
			5001-10000	Per Item
			10001-20000	Per Item
			20001-50000	Per Item
			50001-100000 & more	Per Item
4.	Printing on Metal Sheet/Tin Plate	Size : 17" X 22", Printing : 4 Colour, One Side Printing Material : CR Sheet, Thickness -0 .22 mm +_ 0.01mm, Anti-rust coating on back side of the plate, Eyelets (holes) on all four corners for fixing it on wall. Framing on all four sided of printed tin plate with rubber/fibre.	Less than 5000 piece	Per Item
			5001-10000	Per Item
			10001-20000	Per Item
			20001-50000	Per Item
			50001-100000 & more	Per Item

CATEGORY-‘C’

S.No.	Items	Specifications	Expected Quantity	Rate to be Quoted Per Unit or Per Page as mentioned
1.	Posters	Size-18" x 23", Paper – 80 GSM Maplitho, multi colour, One side printing on Ballarpur Industries Ltd.	Less than 5,000	Per Poster
			5,001 – 20,000	Per Poster
			20,001-1,00,000	Per Poster
			1,00,001-2,00,000	Per Poster
		Size-19" x 29", Paper – 80 GSM Maplitho, multi colour, One side printing on Ballarpur Industries Ltd. (BILT).	2,00,001& above	Per Poster
			Less than 5,000	Per Poster
			5,001 – 20,000	Per Poster
			20,001-1,00,000	Per Poster
			1,00,001-2,00,000	Per Poster
			2,00,001& above	Per Poster
2.	Certificates	Size 11"x8.5", Multi colour - Single/both side printing with lamination, Ivory board 300 GSM.	1-500	Per Item
			501-2,000	Per Item
			2,001-5,000	Per Item
			5,001-10,000 & above	Per Item
3.	Adhesive Reporting Chart	Size : 15" x 20", Printing : Multi colour, one side, Paper: 130 GSM Art Paper , 1" inch adhesive tapes on top & bottom.	Less than 5000	Per Item
			5001 - 20000	Per Item
			5001-20000	Per Item
			20001-50000	Per Item
			50001& above	Per Item
4.	Adhesive Poster	Size : 18" x 23", Printing : Multi colour, One side, Paper : 130 GSM Chromo Art Paper, 3"x1" inch adhesive tapes at corners.	Less than 5000	Per Poster
			5001 - 20000	Per Poster
			5001-20000	Per Poster
			20001-50000	Per Poster
			50001& above	Per Poster
5.	Fly leaf	13.5"x21.75" Open size, Fly Leaf Size 10.25"x13.5", 400 GSM Art Board, Multi colored one side printing, Back side single colour printing, Lamination-Front & back, Binding cloth pasting on centre fold, mounting on upper head corner.	1-5000	Per Item
			5001-10000 & above	Per Item
6.	Booklet/ Guidelines - 1	Size-7.25"x9.25", No. of Pages : 4 to16, Cover Paper- 300 GSM Mat art board, Cover Printing- Four colour both sides, Text Paper- 130 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination- one side on cover mat finished, Fabrication- section sewing with perfect glue paste binding.	Less than 1,000	Per Page
			1001-5,000	Per Page
			5,001-10,000	Per Page
			10,001 & above	Per Page
7.	Booklet/ Guidelines - 2	Size-7.25"x9.25", No. of Pages : 17 to32, Cover Paper- 300 GSM Mat art board, Cover Printing- Four colour both sides, Text Paper- 130 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination- one side on cover mat finished, Fabrication- section sewing with perfect glue paste binding.	Less than 1,000	Per Page
			1001-5,000	Per Page
			5,001-10,000	Per Page
			10,001 & above	Per Page
8.	Booklet/ Guidelines - 3	Size-7.25"x9.25", No. of Pages : 33 to 64, Cover Paper- 300 GSM Mat art board, Cover Printing- Four colour both sides, Text Paper- 130 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination- one side on cover mat finished, Fabrication- section sewing with perfect glue paste binding.	Less than 1,000	Per Page
			1001-5,000	Per Page
			5,001-10,000	Per Page
			10,001 & above	Per Page
9.	Telephone Directory	Size 5.5"x4.25" Text Paper - 70 GSM Maplitho – Single Colour Printing, Cover- 220 GSM Artboard – 4 Colour Printing with lamination, Fabrication: Section sewing with perfect binding. Text Pages upto 40.	-	-
			Less than 500	Per Page
			501-1,000	Per Page
			1,001-1,500	Per Page
		Text Pages 41 to 80.	1,501-2,000 & more	Per Page
			Less than 500	Per Page
			501-1,000	Per Page
			1,001-1,500	Per Page
			1,501-2,000 & more	Per Page
10.	Letter Pads	Size- A4, Executive Bond paper 100 GSM, Multi Colour printing, 100 Pages in each pad.	1-1,000	Per Sheet
			1,001-10,000	Per Sheet
			10,001-20,000	Per Sheet
			20,001-50,000 & above	Per Sheet
11.	Notesheet Pad	Paper Size- 8.25"x13.25", Laser Paper 90 GSM, Printing- both side single colour, Binding 100 sheets of one pad.	1-1,000	Per Sheet
			1,001-10,000	Per Sheet
			10,001-20,000	Per Sheet
			20,001-50,000 & above	Per Sheet

12.	Visiting Cards- 1 (pack of 100 pcs).	Single / Double/Multi Colour printing Britania Company card 350 GSM without embossing.	1-100	Per Card	
			101-1,000	Per Card	
			1001-2,000	Per Card	
			2001-5,000 & above	Per Card	
13.	Visiting Cards-II (pack of 100 pcs.)	Single / Double/Multi Colour printing Britania Company card 350 GSM with embossing of GOI emblem.	1-100	Per Card	
			101-1,000	Per Card	
			1001-2,000	Per Card	
			2001-5,000 & above	Per Card	
14.	Hand bills	Size - 8.5" x 5.5", 100 GSM Maplitho paper Ballarpur Industries Ltd. (BILT)	Single colour both side printing.	1-10,000	Per Item
				10,001-50,000	Per Item
				50,001-100,000	Per Item
				100,001-500,000 & above	Per Item
			Multi colour both side printing	1-10,000	Per Item
				10,001-50,000	Per Item
				50,001-100,000	Per Item
				100,001-500,000 & above	Per Item
15.	Diary	Size 7.25"x9. 5", Pages: approx 440 on 70 GSM maplitho Ballarpur Industries Ltd. (BILT)-single/double color printing, Color Insertion Text: No. of pages approx 16, Four colour on 130 GSM Art Paper, Cover Paper – Four color cover printed on 170 GSM Art Board & pasted on 28 Oz. Mill Board with Matt Lamination, Section sewing with perfect binding & cover will be Hard Case Bounded.	Less than 500	Per Page	
			501-1000	Per Page	
			1001-1500	Per Page	
			1501-2000 and above	Per Page	
16.	Calendar-1	Size 14" x 19", No. of Leaves - 6, Both side 4 color printing, 130 GSM Ballarpore Art paper, Spiral Binding with hanging rod on top side.	1-1,000	Per Leave	
			1001-5,000	Per Leave	
			5001-10,000	Per Leave	
			10001-20,000 & above	Per Leave	
17.	Calendar-2	Size 18" x 23", No. of Leaves -6, Both side 4 color printing, 130 GSM Ballarpore Art paper, good quality Tin mounting on top side with thread hanger.	1-1,000	Per Leave	
			1001-5,000	Per Leave	
			5001-10,000	Per Leave	
			10001-20,000 & above	Per Leave	
18.	Different types of forms	Size 8.5" x 11", Single colour, Single side printing, Paper Maplitho 70 GSM Ballarpore Industries Ltd. (BILT), Packing 500 forms in each packet with craft paper binding.	Less than 1,000	Per Sheet	
			1001-5000	Per Sheet	
			5001-20000	Per Sheet	
			20001 and above	Per Sheet	
		Size 8.5" x 11", Single colour, Both side printing, Paper Maplitho 70 GSM (BILT), Packing 500 forms in each packet with craft paper binding.	Less than 1,000	Per Sheet	
			1001-5000	Per Sheet	
			5001-20000	Per Sheet	
			20001 and above	Per Sheet	
19.	Different types of Form's Pad	Size 8.5" x 11", Single colour, Single side printing, Cover & Text Pages : Paper Maplitho 70 GSM Ballarpore Industries Ltd., No. of sheets 204 in each pad with perfect binding.	Less than 1,000	Per Sheet	
			1001-5000	Per Sheet	
			5001-20000	Per Sheet	
			20001-50000 & above	Per Sheet	
		Size 8.5" x 11", Single colour, both side printing, Cover & Text Pages : Paper Maplitho 70 GSM Ballarpore Papermill, No. of sheets 204 in each pad with perfect binding.	Less than 1,000	Per Sheet	
			1001-5000	Per Sheet	
			5001-20000	Per Sheet	
			20001-50000 & above	Per Sheet	
20.	Stickers	Size - 11"x8.5", Multi colour, Avery dennison 75 GSM gumming sheet with 60 GSM release paper.	1-2,000	Per Sticker	
			2,001 & above	Per Sticker	
		Size - 11"x17", Multi colour, Avery dennison 75 GSM gumming sheet with 60 GSM release paper.	1-2,000	Per Sticker	
			2,001 & above	Per Sticker	
21.	Folders	Size 8.5" X 11" , Ballarpore Art paper, 130 GSM, Multi coloured one side / both side printing, one fold folder.	Upto 50,000	Per Folder	
			50,001-1,00,000	Per Folder	
			1,00,001-2,00,000 & more	Per Folder	
22.	Pamphlets	Size – 8.5" x 11", 90 gsm Maplitho Paper, Single/both side printing.	Single Color printing	1-50,000	Per Item
				50,001-1,00,000	Per Item
				1,00,001-5,00,000	Per Item
				5,00,001-10,00,000 & above	Per Item

			1-50,000	Per Item
			50,001-1,00,000	Per Item
		Four Color printing	1,00,001-5,00,000	Per Item
			5,00,001-10,00,000 & above	Per Item
23.	Flip Charts/Table Stand Calendar	300 GSM Ballarpur Art Board, Both side four color printing, Stand 28 oz. Hard board pasted on 130 GSM laminated art paper with spiral binding on top side.		
		Size- 10.5"x13.5", No. of sheets-18	1-1000	Per Sheet
			1001-5000	Per Sheet
			5001-20000	Per Sheet
			20001-50000 & above	Per Sheet
		Size- 10.5"x13.5", No. of sheets-36	1001-5000	Per Sheet
			5001-20000	Per Sheet
			20001-50000 & above	Per Sheet
		Size- 8.5"x11", No. of sheets-18	1-1000	Per Sheet
			1001-5000	Per Sheet
			5001-20000	Per Sheet
		Size- 8.5"x11", No. of sheets-36	20001-50000 & above	Per Sheet
			1-1000	Per Sheet
			1001-5000	Per Sheet
			5001-20000	Per Sheet
			20001-50000 & above	Per Sheet
24.	Note Pad/Writing Pad	Size: 8.5"x5.5, No. of pages: 48, Cover: 130 GSM Art Paper, four color printing, Text: Single colour, 70 GSM Maplitho Paper.	1 to 3000	Per Page
			3001 & above	Per Page
25.	Tally summary Sheet Register	Size-11"x17" , Cover-300 GSM Art board with lamination on cover, single/multi color one side printing, Text pages-100 GSM Maplitho Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 120 pages or more, single colour printing, Fabrication-Side stitch with perfect binding	< 500 book	Per Page
			501 to 5000	Per Page
			5001 and above	Per Page
26.	Different Type of Registers	Size-11"x17", Text page- 100 GSM maplitho paper Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 100 pages and above, both side printing single/ multi color, Cover Paper – Four color cover printed on 130 GSM Art Paper & pasted on 24 Oz. Mill Board with Lamination, Fabrication - Hard Case Binding with Section sewing with glue pasting / perfect binding.	Less than 100	Per Page
			101-500	Per Page
			501-1000	Per Page
			1001 & above	Per Page
		Size-8.5"x14", Text page- 100 GSM maplitho paper Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 100 pages and above, both side printing single/ multi color, Cover Paper – Four color cover printed on 130 GSM Art Paper & pasted on 24 Oz. Mill Board with Lamination, Fabrication - Hard Case Binding with Section sewing with glue pasting / perfect binding	Less than 100	Per Page
			101-500	Per Page
			501-1000	Per Page
			1001 & above	Per Page
		Size-8.5"x11", Text page- 100 GSM maplitho paper Ballarpur Industries Ltd. (BILT), 100 pages and above, both side printing single/ multi color, Cover Paper – Four color cover printed on 130 GSM Art Paper & pasted on 24 Oz. Mill Board with Lamination, Fabrication - Hard Case Binding with Section sewing with glue pasting / perfect binding	Less than 100	Per Page
			101-500	Per Page
			501-1000	Per Page
			1001 & above	Per Page
27.	Different types of Flip Books	Size-8.5" X 11" Cover Paper- 300 GSM Mat art board, Cover Printing- four colour both sides, Text Paper- 130 GSM Mat art paper, Text Printing- Both side four colour, Lamination- One side on cover mat finished, Fabrication- Spiral binding.	-	-
		No. of Text Page -4 to 40 (Including Cover page)	Less than 3,000 books	Per Page
			3,001-10,000	Per Page
			10,001-20,000	Per Page
			20,001-50,000	Per Page
			50,001-100,000	Per Page
		No. of Text Page 41 to 80 (Including Cover page)	Less than 3,000 books	Per Page
			3,001-10,000	Per Page
			10,001-20,000	Per Page
			20,001-50,000	Per Page
			50,001-100,000	Per Page

		No. of Text Page 81 to 120 (Including Cover page)	Less than 3,000 books	Per Page
			3,001-10,000	Per Page
			10,001-20,000	Per Page
			20,001-50,000	Per Page
			50,001-100,000	Per Page
		No. of Text Page -121 to 160 (Including Cover page)	Less than 3,000 books	Per Page
			3,001-10,000	Per Page
			10,001-20,000	Per Page
			20,001-50,000	Per Page
			50,001-100,000	Per Page
		No. of Text Page -161 to 200 (Including Cover page)	Less than 3,000 books	Per Page
			3,001-10,000	Per Page
			10,001-20,000	Per Page
			20,001-50,000	Per Page
			50,001-100,000	Per Page
		No. of Text Page -201 to 240 (Including Cover page)	Less than 3,000 books	Per Page
			3,001-10,000	Per Page
			10,001-20,000	Per Page
			20,001-50,000	Per Page
			50,001-100,000	Per Page
No. of Text Page -241 to 280 (Including Cover page)	Less than 3,000 books	Per Page		
	3,001-10,000	Per Page		
	10,001-20,000	Per Page		
	20,001-50,000	Per Page		
	50,001-100,000	Per Page		
No. of Text Page -281 to 320 (Including Cover page)	Less than 3,000 books	Per Page		
	3,001-10,000	Per Page		
	10,001-20,000	Per Page		
	20,001-50,000	Per Page		
	50,001-100,000	Per Page		
No. of Text Page -321 to 360 & above (Including Cover page)	Less than 3,000 books	Per Page		
	3,001-10,000	Per Page		
	10,001-20,000	Per Page		
	20,001-50,000	Per Page		
	50,001-100,000	Per Page		

CATEGORY 'D' 1/4kV M¹/₂

S.No.	Items	Specifications	Expected Quantity	Rate to be Quoted Per Unit or per Sq. Feet as mentioned
1.	फलेक्स बैनर	फंटलिट फलेक्स प्रिंट, 10 माइक्रोन्स (स्टार/हानवा/नियो/एस.आर.एफ.), सोल्वेंट तीन पास में बहुरंगीय मुद्रण, चारों कोण पर 0.5 ईंच डायमीटर का आईलेट	1 से 300 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			301 से 1000 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			1001 से 10000 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			10001 से 50000 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			50001 से अधिक वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
2.	होर्डिंग फलेक्स बैनर	फंटलिट फलेक्स प्रिंट, 13 माइक्रोन्स (ब्लैक माम्बा), सोल्वेंट तीन पास में बहुरंगीय मुद्रण, चारों कोण पर 04 ईंच डायमीटर का पॉकेट	1 से 300 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			301 से 1000 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			1001 से 10000 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			10001 से 50000 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			50001 से अधिक वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
3.	फलेक्स कैलेण्डर	फंटलिट फलेक्स प्रिंट, 13 माइक्रोन्स (स्टार/हानवा/नियो/एस.आर.एफ.), एक तरफ सोल्वेंट बहुरंगीय मुद्रण फलेक्स के उपरी एवं निचले भागों पर प्लास्टिक पार्श्व की गोलाई -3/4" (पौन ईंच डायमीटर), प्लास्टिक पार्श्व का घनत्व - 1.5 मिली मीटर, अग्र भाग के पार्श्व के दोनों तरफ उच्च गुणवत्ता का कैंप जिससे उपयुक्त आकार में उपर की ओर नायलॉन डोरी निकला रहेगा।	1 से 300 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			301 से 1000 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			1001 से 10000 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			10001 से अधिक वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
4.	विनाईल स्टीकर	Vinyl on good quality Avery/LG, with 3 pass multi colour, one side printing, Printed on eco solvent HP Machine	1 से 500 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			501 से अधिक वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
5.	रेडियम विनाईल स्टीकर	Radium Vinyle sticker of good quality with plotter cutting & pasting at State/District Headquater	1 से 500 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			501 से अधिक वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
6.	रेट्रो विनाईल स्टीकर	Ratro Vinyle sticker of good quality with plotter cutting & pasting at State/District Headquater	1 से 500 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			501 से अधिक वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
7.	Printing on Acrylic Board	Eco Solvent Vinyle print preferably in HP/Konica and pasted over 2mm Acrylic sheet with pasting/installation and fixing	04 से 100 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			101 से अधिक वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
		Eco Solvent Vinyle print preferably in HP/Konica and pasted over 3 mm Acrylic Sheet with pasting/installation and fixing	04 से 100 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			101 से अधिक वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
8.	Printing on Sun Board	Eco Solvent Vinyle print preferably in HP/Konica and pasted over 2mm Sunboard sheet with pasting/installation and fixing	04 से 100 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			101 से अधिक वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
		Eco Solvent Vinyle print preferably in HP/Konica and pasted over 3mm Sunboard sheet with pasting/installation and fixing	04 से 100 वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
			101 से अधिक वर्गफीट तक	प्रति वर्गफीट
9.	क्लॉथ बैनर	नेहरू बाग/हत्था (लट्ठा कपड़ा) पर मुद्रण, आकार - लंबाई 2 मीटर एवं चौड़ाई 0.75 मीटर, एक रंगीय/बहुरंगीय मुद्रण, बायीं एवं दाहीनी दोनों छोर पर विभिन्न स्थलों पर टांगने हेतु सिलाई होना चाहिए।	बैनर की संख्या एवं आकार (प्रति बैनर 2 मीटर X 0.75 मीटर)	-
			1 से 200 प्रति	प्रति बैनर
			201 से 500 प्रति	प्रति बैनर
			501 से 1000 प्रति	प्रति बैनर
			1001 से 5000 प्रति	प्रति बैनर
			5001 से 10000 प्रति	प्रति बैनर
10001 से अधिक प्रतियाँ	प्रति बैनर			

Annexure-4

COMPANY NAME

CHALLAN NO.

CHALLAN DATE

DELIVERY CHALLAN FOR STATE HEALTH SOCIETY BIHAR, PATNA

Customer		LIST REF.	
Name	CIVIL SURGEON CUM MEMBER SECRETARY / DPM / DIO		
Address	DISTRICT HEALTH SOCIETY,		
Phone	CS :		
	DPM :		Driver's Name _____
	ACMO :		
	DIO :		Vehicle No. _____

<i>Description of</i>				
[LETTER ORDER NO. :]				
SL. NO.	PARTICULARS	QUANTITY [PCS.]	BUNDLES	TOTAL BUNDLES
1	ITEM NAME	0	0 x 0 Pcs.	1
TOTAL				1

<i>Signature : 1</i>	RECEIVED BY : STOREKEEPER / ASSISTANT / CLERK/Others	
NAME & POST :		
SIGNATURE WITH DATE :		
MOBILE NO.:		
		SEAL

<i>Signature : 2</i>	CERTIFIED BY : C.S. / D.P.M. / D.I.O./ NODAL OFFICER/Any other Competent officer		
Certified by CIVIL SURGEON	Certified by ACMO "or" DIO	Certified by DPM	Certified by Nodal Officer
.....
.....

Company's VAT TIN : Company's PAN No. : <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Declaration: I/WE HAVE RECEIVED THE GOODS in good CONDITIONS. </div>	COMPANY'S NAME AND SIGNATURE WITH SEAL
---	--

**Specific Task Contract Between
State Health Society, Bihar
And**

.....

for printing of various materials / modules and supplying them to various districts on the basis of quoted rates in the tender “for publishing of various IEC materials/ modules etc.”.

This agreement is made and entered into on this ----- day of the ----- by and between State Health Society, Bihar, through Executive Director, State Health Society, Bihar (SHSB), having its office at Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna - 800 014, Bihar, the expression where the context permits shall include its successors and hereinafter called 'the first Party'-Purchaser.

And

----- having its Registered Office at -----, the expression where the context permits shall include its successors and hereinafter called 'the second Party'-Supplier.

Definitions

01.01 In this contract, the following terms shall be interpreted as indicated:

- a) "Contract" means the present agreement entered into between the purchaser and the supplier, including all attachments and appendices thereto and all documents incorporated by reference therein.
- b) "Contract price" means the price payable to the supplier under the contract for the full and proper performance of its contractual obligations.
- c) "Goods" means all of the printed materials, which the supplier is required to supply at specified destination to purchaser under the contract.
- d) "Services" means services ancillary to the supply of the goods, such as transportation and insurance and any other incidental services, such as installation, commissioning, provision of technical assistance, training and other such obligations of the supplier covered under the contract.
- e) "Purchaser" means the SHSB and includes its successors or assignees.
- f) "Supplier" means the individual or the firm or company supplying goods under the contract and includes its successors or assignees.
- g) "Executive Director" means the Executive Director, SHSB, who is authorized to execute relevant contract relating to the purchase and supply of goods on behalf of SHSB.

02 Application

02.01 These conditions of contract shall apply to the extent they are not superseded by provisions in other parts of the contract.

02.02 The duration of the contract shall be valid for one year from the date of submission of Bank Guarantee and on the satisfactory performance of the agency it may be further extended for another one year or as per the decision of the Executive Director or Additional Executive Director.

02.03 All orders given by the date of Signing of Contract in pursuance of the notification of award of the tender pursuant to which this contract has been signed, shall also be covered within the provision of this contract.

02.04 If any statements or documents furnished by the supplier were found to be false or incorrect at any stage or time, he would be punishable under the laws in force in India for such misdeeds.

03 Origin

03.01 For purpose of this clause "origin" means the place where the goods are supplied.

04 Standards

04.01 The goods supplied under this contract shall conform to the standards and specification as provided in the tender document itself.

05 Use of contract documents and information

- 05.01 The supplier shall not, without the purchaser's prior written consent, disclose the contract or any provision thereof or sample or information furnished by or on behalf of the purchaser in connection therewith, to any person other than a person employed by the supplier in the performance of the contract. Disclosure to any such employed person shall be made confidential and shall extend only so far as may be necessary or for the purposes of performing the contract.
- 05.02 The supplier shall not, without the purchaser's prior written consent, make use of any documentary information enumerated in clause 05.01 except for the purposes of performing the contract.
- 05.03 Any document other than the contract itself, enumerated in clause 05.01, shall remain the property of the purchaser and shall be returned (in all copies) to the purchaser on completion of the supplier's performance under the contract if so required by the purchaser.

06 Patent rights

- 6.01 The supplier shall indemnify the purchaser against all third-party claims of infringement of patent, trademark or industrial design rights arising from use of the goods or any part thereof in the purchaser's country.

07 Performance Security

- 07.01 After the issue of notification of award of tender by purchaser, the supplier shall furnish towards performance security, a Bank guarantee issued by any nationalized bank worth Rs ----- or decided by Executive Director of SHSB valid for a period exceeding ninety (90) days of the period of validity of contract.
- 07.02 The proceeds of the performance security shall be payable to the purchaser as compensation for any loss resulting from the supplier's failure to complete its obligations under the contract.
- 07.03 The performance security shall be denominated in Indian Rupees and shall be in form of a Bank Guarantee, which may be subject to verification.
- 07.04 The performance security will be discharged by the purchaser and returned to the supplier on satisfactory performance and completion of the supplier's obligations by or under the contract.

08 Inspection and tests

- 08.01 The items under the contract would have to be delivered by the supplier at SHSB headquarter at Patna or to districts headquarters, as the case may be, as per the specification in the work order.
- 08.02 After printing, Executive Director of SHSB shall collect requisite number of samples for quality testing which will be sent to the designated testing laboratory as per clause 12.02 for testing the specifications of the finished material supplied to the purchaser.

- 08.03 At first, 80% of the payment shall be made on delivery of material as per work order and provisions in the contract, but rest 20% shall be paid on receipt of test report from the designated testing laboratory.
- 08.04 The payment of fees to the testing laboratory for conducting the test of quality is to be borne by the "Second Party."
- 08.05 The purchaser's right to inspect, test and where necessary, reject the material after the good's arrival at the final destination shall in no way be limited or waived off, by reason of the goods having previously been inspected, tested and passed by purchaser or its representatives prior to the goods dispatched from the place of printing.
- 08.06 Nothing in clause 08 shall in any way release the supplier from any warranty or other obligations to supply material as per specifications mentioned in tender for which the contract is being entered into.

09 Packing

- 09.01 The supplier shall provide such packing of the goods as is required to prevent their damage or deterioration during transit to their final destination as indicated in the contract/ work order. The packing shall be sufficient to withstand, without limitation, rough handling, rain, water, sun and other threats during transit and open storage. Packing case size and weights shall take into consideration, where applicable, the remoteness of the goods' final destination and the absence of heavy handling facilities at all points in transit. In addition, the supplier shall also make necessary arrangement for the smooth transportation of goods up to the final destination specified in the contract.
- 09.02 The SHSB may require project wise packaging of materials specifying the number of modules/ finished product to be kept in each packet. The packing, marking, and documentation within and outside the packages shall comply strictly with such special requirements as shall be expressly provided for in the contract or in any subsequent instructions given by the purchaser.
- 09.03 Packing instructions: The supplier will be required to make separate packages for each consignee. Each package will be marked on three sides with proper point the following:
- a) Brief description of goods, including number in each package
 - b) Contract/ work order number and date
 - c) Place of origin of goods
 - d) Supplier's name and address
 - e) Packing list reference number
 - f) Consignee's name and full address and
 - g) "Logogram of SHSB."
 - h) The carton and each item should necessarily bear the words "Bihar Govt. Supply, NOT FOR SALE" in bolder writing than those already printed on the label. The above caption shall run from the lower left hand corner to the top right hand corner on the carton and at any prominent place on each item.

10. Delivery and documents

- 10.01 Delivery of the modules/materials shall be made at destination within forty five days (45) from the date of issue of work order by Executive Director of SHSB or by any date agreed upon mutually by both parties. Each order shall bear the detail of project name and quantity of modules/materials to be supplied and such information necessary for packaging to facilitate project wise distribution to the mentioned destinations.
- 10.02 The supplier is required to supply the printed material within the specified time as stipulated in the contract document. In special circumstances, this can be extended for further fifteen days (15) constituting the events of 'force majeure' subject to the production of sufficient evidence in consonance with the claim of cause of delay.
- 10.03 For the purposes of the contract, "F.O.R.", "C.I.F." and other trade terms used to describe the obligations of the parties, supplier shall notify the purchaser, consignee, indenter and the paying authority, the full details of dispatch and also shall supply following documents:
- (i) Copies of supplier's invoice showing goods description, quantity, unit price and total amount
 - (ii) Railway receipt/ consignment note/ acknowledgment for receipt of goods from the consignee(s)
 - (iii) Manufacturer's/ supplier's guarantee certificate
 - (iv) Inspection certificate issued by the nominated inspection agency, where applicable
 - (v) Certificate of origin
 - (vi) Proper receipts of delivery of goods and
 - (vii) Any other document specified in the notification of award/ contract.

11. Transportation

- 11.01 Where the supplier is required under the contract to deliver the goods F.O.R, the supplier on his own shall arrange for the safe transportation of the goods up to delivery point, the cost whereof is already included in the contracted rate of the items under this agreement.
- 11.02 Where the supplier is required under the contract to deliver the goods C.I.F (insurance if applicable), or to a specified destination within Bihar, transport of the goods to such point in Bihar as specified in the contract/ work order shall be arranged and paid for by the supplier, the cost whereof is already included in the contracted rate under this agreement.

12. Payment

- 12.01 After printing, the sample of printed module / material would be sent to the testing laboratory for testing of specifications. At first, 80% of payment shall be made within 30 days on presenting proper vouchers and availability of file/concern officer after the delivery of printed module / material as per provisions in the contract and the rest 20% shall be paid within 20 days from the date of receipt of quality testing report from testing laboratory.

- 12.02 The laboratory designated for testing of all papers products would be the Central Pulp Research Institute, Saharanpur or any other agency and for tin plates & other materials would be TUV-SUD South Asia, New Delhi.
- 12.03 Before making final payment to supplier the second party, the "First Party, purchaser" will ensure that the payment for conducting the above test has been made by the second party to the concerned testing agency as mentioned in clause 08.03.
- 12.04 In case of mismatch in specification of sample by the testing laboratory regarding the quality of material supplied, the first party will make deductions as follows:

Percentage match reported by CPPRI, Saharanpur / TUV-SUD South Asia, New Delhi or any other agency	Percentage deduction from total bill amount
95-99	2.5
90-94.9	5
85-89.9	7.5
80-84.9	10
Less than 80	Entire order will be cancelled

- (i) If the samples do not conform upto 80% of the specifications provided in tender, then the entire order would be cancelled and the second party supplier will take back all the material supplied to first party at their own cost and will return the full payment received towards the tender within 15 days of cancellation of orders, failing which security deposit towards performance guarantee shall be forfeited.
- (ii) If the samples do not conform the specifications in regard to printing quality, cutting, binding and stitching accuracy, default in packing or late delivery of printed materials to the concerned destination, then the first party will be entitled to deduct such losses from the bill amount of second party.
- 12.05 SHSB shall complete the process of making payments within 30 days of submissions of proper invoices and proper receipts of delivery of goods.
- 12.06 The delivery of goods at the designated place should be properly receipted by the competent officer such as Store Keeper or I/C Store /nominated nodal officer by DHS/any competent officer or employee.

13. Prices

- 13.01 Prices charged by the supplier for goods delivered and services performed under the contract shall be as per the L1 rate of the tender as detailed in Annexure-1 (forming part of this agreement) for various types of modules.

14. Change orders

- 14.01 The purchaser may at any time, through a written order placed on the supplier, make changes within the general scope of the contract in any one or more of the following:
- Method of packing,
 - Place of delivery, or
 - Services to be provided by the supplier.

- 14.02 If any such change causes an increase or decrease in the time required for, the supplier's performance of any part of the work under the contract, whether changed or not, by the order, an equitable adjustment shall be made in the contract delivery schedule and the contract shall accordingly be amended. Any claims by the supplier for adjustment under this clause must be asserted within fifteen (15) days from the date of purchaser's change order.
- 14.03 No objection should be made from the second party, if the first party issue the order for supply of particular material from another party on the basis of performances as per necessity of SHSB.

15. Contract amendments

- 15.01 The duration of contract may be extended for another one year or as per the decision of the Executive Director or Additional Executive Director, if the performance is satisfactory of the agency. The variation in or modification of the terms of the contract under this agreement shall be made only by written amendment signed by both the parties.

16. Assignment

- 16.01 The supplier shall not assign, in whole or in part, its obligations to perform under the contract, except with the purchaser's prior written consent.

17. Delays in the supplier's Performance

- 17.01 Any unexcused delay by the supplier in the performance of its delivery obligations shall render the supplier liable to any or all of the following sanctions:
- (i) Forfeiture of the deposited performance security,
 - (ii) Imposition of liquidated damages, and/or
 - (iii) Termination of the contract for default.

18. Liquidated damages

- 18.01 For delays: If the supplier fails to deliver any or all of the goods or perform the services within the time period(s) specified in the contract or work order or extension order of the purchaser, the purchaser shall, without prejudice to its other remedies under the contract, deduct from the contract price, as liquidated damages, a sum equivalent to two percent of the delivered price of the delayed goods, or un-performed service, for each week of delay or part thereof until actual delivery or performance.

19. Termination for default

- 19.01 The purchaser may, without prejudice to any other remedy for breach of contract, by written notice of default sent to the supplier, terminate the contract in whole or in part:

- a) If the supplier fails to deliver any or all the goods or perform the services within the time period(s) specified in the contract/ work order/ extension order.

Or

- b) If the supplier fails to perform any other obligation(s) under the contract.
- 19.02 In the event the purchaser terminates the contract in whole or in part, pursuant to the clause 19.01, the purchaser may procure, upon such terms and in such manner, as it deems appropriate, goods similar to those undelivered, and the supplier shall be liable to the purchaser for any excess costs, if any, paid towards purchase of such goods. However, the supplier shall continue performance of the contract to the extent not terminated.
- 19.03 If the supplier fails to do work at the rates quoted by him in the tender then State Health Society, Bihar reserves the right to debar the supplier from doing any work with SHSB in future and take necessary steps to get the company blacklisted with all departments of Government of Bihar. In such case, the amount deposited towards security by the supplier shall stand forfeited to the State Health Society, Bihar.

20. Termination for convenience

- 20.01 The purchaser, may by written notice sent to the supplier, terminate the contract, in whole or in part, at any time for its convenience. The notice of termination shall specify that termination be for the purchaser's convenience, the extent to which performance of work under the contract is terminated, and the date upon which such termination becomes effective.
- 20.02 The goods that are complete and ready for shipment/ transportation at the time of the supplier's receipt of notice of termination, pursuant to clause 20.01, shall be purchased by the purchaser at the contract terms and prices. The purchaser shall give seven days' notice for delivery of such goods.

21. Continuation of printing work

- 21.01 The State Health Society, Bihar reserves the right to amend the quantity of material to be printed depending upon requirements, and accordingly work orders may be placed upon L1 supplier.
- 21.02 In case of exigencies or otherwise, State Health Society, Bihar reserves the right to get the work of printing accomplished by L2 or L3 printers at L1 rate depending upon the volume of material or modules to printed executing the agreements with them in the similar vein.

22. Resolution of disputes

- 22.01 The purchaser and the supplier shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiations any disagreement or dispute arising between them under or in connection with the contract.
- 22.02 If, after thirty (30) days from the commencement of such informal negotiations, the purchaser and the supplier have been unable to resolve amicably disputes, if any, either party may require that the dispute be referred

for resolution to the Principal Secretary, Department of Health, Govt. of Bihar whose decision shall be final and binding on both parties.

23 Notices

- 23.01 Any notice given by one party to the other pursuant to the contract shall be sent in writing by speed post or courier or by other normally acceptable mode of service of notice to the address specified below for the purpose of the notification of award/contract.
- 23.02 A notice shall be effective when delivered or on the notice's effective date, whichever is later.

24. Taxes

- 24.01 The supplier shall be entirely responsible for payment of all leviable taxes, duties and fees, etc. on sale or supply of goods and services.
- 24.02 The TDS or VAT will be deducted as applicable, if the supplier fails to produce the non-deduction certificate in 'Form- CIII' and deposited towards his liability to the sales tax department. Furthermore, TDS of IT as applicable, would also be deducted and deposited to indemnify his liability to pay the same to the income tax department.

Both the parties have gone through the above-mentioned terms and conditions of the contract, and agreed mutually to comply with them.

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto of the first and second part have set and subscribed their respective hands and seals on the day, months, and year first written hereinabove.

For, The State Health Society, Bihar

For, -----

(-----)

(.....)

Date:

Date:

Address: State Health Society, Bihar
Priwar Kalyan Bhawan
Sheikhpura, Patna – 14 (Bihar)

Address:
.....
.....

Witness:

Witness:

Name

Name

Address: State Health Society, Bihar
Priwar Kalyan Bhawan
Sheikhpura, Patna – 14 (Bihar)

.....
.....
.....